

RADIANT ACADEMY
(AFFILIATED TO CBSE)
B-180, sector-55, noida Ph: 120-4314312/ 6514636
Mob.: 9350251631/ 9674710772 E-mail: radiantacademynoida@yahoo.com

RADIANT ACADEMY
(J.H.S.) (AFFILIATED TO CBSE)
Sorkha, Sector- 115, noida on Fng Ph: 120- 6495106,
Mob.: 9873314814/ 9674710772 E-mail: radiantacademysorkha@yahoo.com

Let your child Explore the world with us in a Secure Environment!
We are a Co-Educational Medium Senior Secondary School
imparting quality education since the last 20 years.

FROM ADMISSION OPEN NURSERY TO CLASS XI Transport Facility Available
FACILITIES AVAILABLE AT SCHOOL : Highly Qualified And Trained Faculty
Well Equipped Labs CCTV Controlled Environment Activity Based Learning
Well Equipped Library GPS Enable Buses

आज की खबर आज ही

चेतना मंच

जनाकांक्षाओं का सजग प्रहरी

संभल में 46 साल बाद खुले मंदिर के पास हुई खुदाई कुएं से मिली खंडित मूर्तियां



कुएं में 20 फीट खुदाई के बाद मिली मां पार्वती, भगवान गणेश व कार्तिकेय की मूर्तियां

संभल (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के संभल में 46 साल बाद खुले मंदिर के पास स्थित कुएं की खुदाई के दौरान एक के बाद

एक तीन मूर्ति निकली हैं। करीब 15 से 20 फीट तक मंदिर की खुदाई के बाद कुएं में से खंडित हो चुकी मूर्तियां निकली हैं। जो

कि 7 से 8 इंच लंबी है। देखने से ये मूर्ति माता-पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय की प्रतीत हो रही हैं। फिलहाल,

जांच-पड़ताल जारी है। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। फिलहाल प्रशासन ने कुएं में खुदाई रोक कर उसे लोहे के

जाल से बंद कर दिया है। दरअसल, संभल के दीपसराय से सटे खग्गु सराय में करीब 4 दशक साल से बंद पड़े पुराने शिव मंदिर को प्रशासन ने शनिवार को फिर से खुलवाया। मंदिर के खुलते ही यहाँ पुलिस प्रशासन और लोगों की भीड़ लगा गई। पूजा-अर्चना भी शुरू हो गई। वहीं, प्रशासन की ओर से मंदिर के बिल्कुल पास पाट दिए गए एक कुएं की भी खुदाई करवाई गई। जब इसकी 15 फीट तक खुदाई हुई तो इसमें एक-एक कर मूर्ति निकलने लगीं। इसकी सूचना लगते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर एकत्र हो गए। संभल जिले में बिजली चोरी चेकिंग के दौरान मिले प्राचीन हिंदू मंदिर से अब पुराने अवशेष मिलने के बाद इसे प्रशासन को सौंप दिया गया है। अब इसकी जांच की जाएगी। संभल में मुस्लिम बहुल इलाके में बंद मिले 46 साल पुराने मंदिर की कार्वन डेंटिंग कराने की तैयारी चल रही है। (शेष पृष्ठ-4 पर)



तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन

नई दिल्ली (एजेंसी)। दुनिया में जिनके तबले की थाप एक अलहदा पहचान रखती है, वो उस्ताद जाकिर हुसैन नहीं रहे। 73 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रसिद्ध तबला वादक के परिवार ने सोमवार को यह जानकारी दी। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। परिवार ने बयान में कहा कि जाकिर हुसैन का निधन फेफड़े से संबंधी 'इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस' से हुई जटिलताओं की वजह से हुई। वह 73 वर्ष के थे। हुसैन पिछले दो सप्ताह से अस्पताल में भर्ती थे। उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया था।

प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद अल्लर रक्खा के पुत्र जाकिर हुसैन का जन्म नो मार्च 1951 को हुआ था। उन्हें उनकी पीढ़ी के सबसे महान तबला वादकों में माना जाता है। उनके परिवार में उनकी पत्नी एंटोनिया मिनेकोला और उनकी बेटियां अनैशा कुरैशी और इसाबेला कुरैशी हैं। तबले की तालीम उन्होंने पिता से ही ली थी। उस्ताद जाकिर हुसैन की शिष्यवत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने महज 11 साल की उम्र में अमेरिका में पहला कॉन्सर्ट किया। यानी पल्मोनरी फाइब्रोसिस' से हुई जटिलताओं की वजह से हुई। वह 73 वर्ष के थे। हुसैन पिछले दो सप्ताह से अस्पताल में भर्ती थे। उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया था।

यूपी विधानसभा में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हंगामा

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र सोमवार से शुरू हो गया। पहला दिन हंगामेदार रहा। सदन शुरू होते ही सपा नेताओं ने नारेबाजी करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष सतीशा महाना उन्हें समझाते रहे। इससे पहले सीएम योगी ने मंत्रियों और विधायकों से तैयारी करके सदन में आने के लिए कहा था। यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा सत्र अत्यंत गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के विकसित भारत अभियान के साथ यूपी पूरी जी जान से जुड़ा है। विकसित भारत बनाने में यूपी अहम भूमिका निभा रहा है। आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक यूपी देश को आगे बढ़ाने में सहयोगी है। यूपी विकास में निरंतर वृद्धि कर



रहा है। विकास, सुरक्षा, समृद्धि ही नहीं आस्था और आधुनिकता का भी संगम आज उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। इसका रास्ता हमारे विधानमंडल से ही प्रारंभ होता है।

सत्र के दौरान सरकार विधायी कार्य के साथ-साथ अनुपूरक बजट भी विधानमंडल के सामने आएगा। इसके अलावा सदस्यों के पास जनता और विकास से जुड़े महत्वपूर्ण

मुद्दे और सुझाव रखने का समय है। उन्होंने सभी सदस्यों (यानी पक्ष और विपक्ष) से अपील किया सभी लोग जनता और विकास के मुद्दों पर सार्थक चर्चा करें। (शेष पृष्ठ-4 पर)

दहेज में 10 लाख रुपये और प्लेट न मिलने पर विवाहिता को उतारा मौत के घाट

नोएडा (चेतना मंच)। दहेज लोभियों ने एक बार फिर दहेज में 10 लाख रुपये और प्लेट न मिलने पर अपनी बहू को फांसी लगाकर मार डाला। घटना को अंजाम देने के बाद सारे ससुराली मौके से फरार हो गए। इस मामले में पीड़ित महिला के पिता ने थाना सेक्टर-24 में ससुरालियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। नोएडा के थाना सेक्टर-24 में सुभाष चौहान निवासी रजत विहार सेक्टर-62 ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उन्हें अपनी बेटी पारुल की शादी मार्च 2023 में शिवम चौहान पुत्र चमन सिंह निवासी राईजिंग होम सेक्टर-53 मूलनिवासी स्थाना,



दे रहे थे। सुभाष चौहान ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ पति शिवम चौहान, ससुर चमन सिंह, सास रीना व देवर मनोष चौहान अक्सर मारपीट करते थे और अपने घर से सोना व 10 लाख रुपये नकद तथा प्लेट दिलाने का दबाव बनाते थे। इन सब मामले में शिवम चौहान का मौसा शिवम राणा निवासी गोविंदपुरम गाजियाबाद भी शामिल था। उन्होंने बताया कि ससुरालियों का उत्पीड़न सहने के बावजूद उनकी बेटी ने कभी भी इस बारे में उन्हें नहीं बताया। जब ससुरालियों का उत्पीड़न ज्यादा (शेष पृष्ठ-4 पर)

ऑनलाइन शिलांग से मंगाते थे मादक पदार्थ

नोएडा (चेतना मंच)। थाना फेस 3 पुलिस ने ऑनलाइन शिलांग से मादक पदार्थों की सप्लाई करने वाले अंतरराज्यीय गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने युवती सहित गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 70 किलो गांजा बरामद हुआ है। डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि थाना फेस तीन पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग शिलांग से ऑनलाइन गांजा व चरस मंगा कर स्कूल, कॉलेज व इंस्टिट्यूट के बाहर उसकी सप्लाई करते हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने गिरोह के सदस्यों की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को जांच के लिए रोका गया। तलाशी लेने पर उसके पास से 70 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस टीम ने कार सवार पिंटू उर्फ काले, सर्येंद्र शर्मा, संदीप कुमार, आसिफ जमाल तथा काजल कुमारी को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि (शेष पृष्ठ-4 पर)

सीईओ ने कई सेक्टरों का दौर कर सफाई व्यवस्था का लिया जायजा



नोएडा (चेतना मंच)। नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डा. लोकेश एम ने जनस्वास्थ्य विभाग टीम के साथ विभिन्न सेक्टरों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जगह-जगह सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया तथा मातहत अफसरों को आवश्यक

दिशा-निर्देश दिये। आज सुबह तड़के डा. लोकेश एम ने सेक्टर-62 एलीवेटेड रोड सेक्टर-59, एम्पी रोड नंबर-6आदि कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने सिविल उद्यान जन स्वास्थ्य आदि विभागों के अफसरों को कई निर्देश दिये। (शेष पृष्ठ-4 पर)

पैतृक गांव गया था परिवार चौरों ने लगाई संध

नोएडा (चेतना मंच)। थाना सेक्टर-49 क्षेत्र के कल्याण कुंज, बरौला में रहने वाले एक व्यक्ति के घर से चौरों ने लैपटॉप प्लॉट की रजिस्ट्री व नगदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना के समय पीड़ित अपने परिवार सहित अपने पैतृक गांव गया हुआ था। मूल रूप से जनपद फिरोजाबाद के रहने वाले अनुज कुमार ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह हाल में अपने परिवार के साथ बरौला के कल्याण कुंज में रह रहा है 11 दिसंबर की रात्रि को वह अपने परिवार के साथ फिरोजाबाद गया था। 12 दिसंबर की देर रात्रि जब वह अपने गांव से वापस नोएडा स्थित घर पहुंचा तो उसको घर का ताला टूटा हुआ मिला। घर के भीतर जाने पर पता चला कि चोर घर से लैपटॉप प्लॉट की रजिस्ट्री नगदी व अन्य सामान को चोरी कर ले गए हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है।

अवैध संबंधों में बाधा बने पति का प्रेमी ने कटार से रेता गला

ग्रेटर नोएडा (चेतना मंच)। थाना नूपुर पुलिस ने बीते दिनों हुई एक व्यक्ति की हत्या की घटना का पर्दाफाश करते हुए मृतक की पत्नी व उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। अवैध संबंधों के चलते मृतक की पत्नी के दोस्त ने गला रेत कर उसकी हत्या की थी। एडीसीपी ने बताया कि मूल रूप से रामघाट बुलंदशहर निवासी बन्नी सिंह अपनी पत्नी के साथ सिरसा गांव में किराए पर रह रहा था। शुक्रवार की रात पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दी की बन्नी सिंह अपने कमरे में चारपाई पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो पता चला कि बन्नी सिंह की गला रेतकर हत्या की गई है। मौके पर बन्नी सिंह की पत्नी ममता नहीं मिली। पुलिस ने

उसके मोबाइल पर संपर्क साधने का प्रयास किया लेकिन वह स्थिर ऑफ था। प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला कि पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद रहता था। पुलिस ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल की। सूचना के आधार पर पुलिस ने बन्नी सिंह की पत्नी ममता को पेरौलिया एक्सप्रेसवे से दबोच लिया। पूछताछ में ममता ने अपने पति की हत्या की साजिश को अंजाम देना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने ममता के प्रेमी बहादुर को पकड़ लिया। एडीसीपी ने बताया कि ममता व बहादुर पड़ोस के गांव के रहने वाले थे और एक शादी समारोह में उनकी मुलाकात हुई थी जिसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गई। (शेष पृष्ठ-4 पर)

नोएडा में 24, 25 व 31 को रात 11 तक खुलेंगे शराब के ठेके

नोएडा (चेतना मंच)। जनद गौतम बुद्ध नगर में अंजो तथा शराब व बियर के दुकान आगामी 24, 25 तथा 31 दिसंबर को रात 11:00 बजे तक खुलेंगी। सभी ठेके सुबह 10:00 बजे से रात 11:00 तक खुले रहेंगे। यह जानकारी उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह ने जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह ने आदेश जारी किए हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में 24, 25 दिसंबर को सभी ठेके रात 11:00 बजे तक खुलेंगे वहीं नव वर्ष को देखते हुए 31 दिसंबर को सभी ठेके 11:00 तक खोले जाएंगे। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि (शेष पृष्ठ-4 पर)

रोडरेज में दंपति पर हमला

ग्रेटर नोएडा (चेतना मंच)। दादरी के रेलवे रोड पर ब्रेजा कार के चालक ने टक्कर मारने के बाद कार सवार दंपति के साथ बदसलूकी व मारपीट की। पीड़ित ने थाना दादरी में कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बुलंदशहर निवासी कृष्ण कौशिक ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि वह 15 दिसंबर अपनी दोपहर को अपनी पत्नी के साथ कार से दादरी आ रहा था। दादरी के रेलवे रोड पर डिवान्डन अस्पताल के सामने तेज गति में आ रही ब्रेजा कार के चालक ने उनकी कार में टक्कर मार दी। इस हादसे में उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई। उसने जब इस बात का विरोध किया तो ब्रेजा कार के चालक ने डंडा निकालकर उस पर हमला



कर दिया। उसकी पत्नी ने जब बीच बचाव का प्रयास किया तो आरोपी ने उसके साथ भी बदसलूकी की। मौके पर भीड़ इकट्ठा होता देखकर आरोपी अपनी कार लेकर फरार हो गया। उन्होंने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। पीड़ित कृष्ण कौशिक के मुताबिक इस घटना के बाद से उसका पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और कार नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है।

डंपिंग ग्राउंड रहित एनसीआर का पहला शहर बनेगा नोएडा

4-4 लाख मीट्रिक क्षमता के 10 सीबीजी प्लांट होंगे स्थापित: एसपी सिंह



नोएडा (चेतना मंच)। नोएडा में शीघ्र ही 4-4 लाख मीट्रिक टन क्षमता के 10 सीबीजी आधारित प्लांट स्थापित किए जाएंगे। पब्लिक, प्राइवेट पार्टनर (पीपीपी) आधारित 40-40 मीट्रिक टन क्षमता के 10 प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण इन प्लांट के लिए जगह उपलब्ध करायेगा। यह जानकारी जनस्वास्थ्य विभाग के महा प्रबंधक एसपी



सिंह ने दी। एसपी सिंह ने बताया कि अब तक 9 लाख मीट्रिक टन से अधिक क्षमता के लिगेसी 2 वेस्ट का निस्तारण किया जा चुका है। शेष 4 लाख मीट्रिक टन लिगेसी

वेस्ट का निस्तारण करने के लिए समय सीमा का निर्धारण किया जा रहा है। दिसंबर के अंत तक कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नोएडा

एनसीआर का पहला शहर होगा जहाँ कचरा एकत्र करने का कोई भी डंपिंग ग्राउंड नहीं होगा। वर्तमान में गीले कचरे के निस्तारण के लिए सेक्टर-195 मुबारकपुर में अस्थायी डंपिंग ग्राउंड बनाया गया है। जहाँ वैज्ञानिक तरीके से लिगेसी वेस्ट को रिपयूज ड्रॉइव फ्यूल (आरपीएफ) में तब्दील किया जा रहा है। महाप्रबंधक एसपी सिंह ने बताया कि शीघ्र ही 40-40 मीट्रिक टन क्षमता के 10 बायोप्यूल गैस (सीबीजी) प्लांट लगाये जाएंगे। प्लांट व मशीनरी का खर्च चयनित कंपनियों वहन करेंगी। इन प्लांट में तैयार होने वाली कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) को कंपनियों बाजार में बेचेगी। इससे होने वाली आय का कुछ प्रतिशत शेरय प्राधिकरण के खाते में डाला जाएगा। (शेष पृष्ठ-4 पर)

शादी में बिन बुलाये मेहमान ने की मारपीट

नोएडा (चेतना मंच)। शादी समारोह में बिना निमंत्रण के आए एक व्यक्ति को टोकना बैकिट हॉल के ऑनर को खासा महंगा पड़ा। आरोपी ने पूछताछ से गुस्सा होकर ऑनर के साथ गाली गलौज मारपीट की। जाते समय आरोपी ने ऑनर को मोटरसाइकिल से टक्कर मारने का भी प्रयास किया। बैकिट हॉल के ऑनर ने थाना सेक्टर-126 में मुकदमा दर्ज कराया है। केपी टावर में रहने वाले सचिन लोहिया ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि वह जेएस गार्डन बैकिट हॉल के ऑनर हैं। 15 दिसंबर को उनके बैकिट हॉल में शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान उन्हें एक व्यक्ति पर शक हुआ। उन्होंने उक्त व्यक्ति से पूछा कि वह शादी में किस पक्ष की तरफ से है तो वह उनके तथा मेहमानों के साथ गाली गलौज करने लगा। उनके द्वारा विरोध करने पर उक्त व्यक्ति ने मारपीट शुरू कर दी। मौके पर इकट्ठा हुए अन्य (शेष पृष्ठ-4 पर)

उल्लास का क्षण

भा रत के 18 वर्षीय ग्रैंडमास्टर गुकेश डी का वर्ल्ड चैंपियन बनना हर भारतीय को उल्लास से भर गया। वजह है कि वह दुनिया में सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। जो बताता है कि भारत अब शतरंज के ग्रैंड मास्टर्स की खान बनता जा रहा है। वीरवार को उसने सिंगापुर में खेले गई विश्व चैंपियनशिप की 14वीं अंतिम बाजी में चीन के ग्रैंडमास्टर डिंग लिज़ेन को हराया। बचपन में किसी पत्रकार ने उनसे पूछा था कि उनका सपना क्या है तो बालक गुकेश ने दो टूट शब्दों में कहा था कि मैं विश्व चैंपियन बनना चाहता हूँ। यह तो तय था कि वे विश्व चैंपियन बनेंगे, लेकिन इतनी जल्दी बनेंगे यह उम्मीद उनके अलावा किसी को नहीं थी। विश्वनाथन भी विश्व चैंपियन बने मगर वे 31 साल की उम्र में यह करिश्मा दिखा पाए। यही वजह है कि 14वीं व अंतिम बाजी जीतने के बाद वे भाव-विभोर होकर अपनी अप्रत्याशित जीत के बाद खुशी से सार्वजनिक रूप से रो पड़े। बेहद सहज व सरल स्वभाव के गुकेश का बड़प्पन देखिए कि इस बड़ी जीत के बावजूद उन्होंने कहा कि हारने वाले डिंग दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं। बहरहाल, आज गुकेश निर्विवाद रूप से शतरंज के बादशाह हैं। उनकी साधना ने सफलता की नई इबारत लिखी है। उनकी सफलता के पीछे उनके परिवार का भरपूर संबल रहा। यहाँ तक कि बेटे की सुनहरी कामयाबी के लिये पिता ने अपना कैरियर तक दांव पर लगा दिया। वैसे सिंगापुर में तेरह दिसंबर तक चलने वाली चेंस चैंपियनशिप का एक सुखद पहलू यह भी है कि शतरंज में एशिया का वर्चस्व नजर आया। यह इस विश्वस्पर्धा के 138 साल के इतिहास में पहली बार हुआ कि दो एशियाई शतरंज के माहिर खिलाड़ी जीत के लिये मुकाबला कर रहे थे। वहीं मुकाबला इतना कड़ा था कि गुकेश डी और पूर्व चैंपियन डिंग के बीच तेरह मुकाबलों तक बाजी बराबरी पर छूटी। जिससे शतरंज प्रेमियों में खेल का रोमांच बराबर बना रहा। बहरहाल, इस कड़े मुकाबले का निष्कर्ष यह है कि इस मुकाबले के बाद गुकेश शतरंज की दुनिया के बेताज बादशाह बन गए हैं। उन अंतर्राष्ट्रीय माहिरों को मुह की खानी पड़ी जो कुछ राउंड के बाद गुकेश को कमतर आंक रहे थे। वैसे पूर्व विश्व चैंपियन आर्नोल्ड ने इस मुकाबले को जटिल व कठिन बताया था। बहरहाल, चेन्नई के गुकेश डी की इस कामयाबी ने एक संकेत यह दिया कि चेन्नई देश को लगातार विश्वस्तरीय ग्रैंडमास्टर दे रहा है। यहाँ तक कि कई चैंपियन देने वाले चेन्नई को भारत की शतरंज की राजधानी तक कहा जाने लगा है। इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि गुकेश के परिवार में कभी किसी ने शतरंज नहीं खेला। उनके खेल के प्रति जुनून ने ही उन्हें विश्व चैंपियन बनाया है। यहाँ तक कि स्कूल की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल कर लिया था। वे 2019 में भारत के सबसे कम उम्र में ग्रैंडमास्टर बनने वाले मोहरों के माहिर थे। कालांतर उनकी प्रतिभा निखारने के लिये पिता ने उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिलाया। उनके प्रशिक्षकों ने उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उन पर विशेष ध्यान दिया। परिवार व स्कूल के संबल से प्रतिभा निखरी। वर्ष 2015 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने से कामयाबी का जो सिलसिला शुरू हुआ, वह आज विश्व चैंपियनशिप जीतने के मुकाम तक जा पहुँचा है। वैसे वे इससे पहले कॉमनवेल्थ चेंस चैंपियनशिप में गोल्ड, स्पेन में संपन्न अंडर-12 चैंपियनशिप, यूरोपियन चेंस क्लब कप के अलावा कई ओपन टाइटल समेत कई खिताब भी जीत चुके हैं। निस्संदेह, इस शिखर की कामयाबी में जहां गुकेश की कड़ी मेहनत, एकाग्रता व जुनून शामिल है, वहीं सर्जन पिता डॉ.रजनीकांत के त्याग का भी बड़ा योगदान है, जिन्होंने अपना कैरियर ही बेटे के भविष्य के लिये छोड़ दिया था। वहीं गुकेश के कैरियर को बुलंदियों तक पहुँचाने में योग का भी योगदान है, जिसने उन्हें गहरी एकाग्रता दी है। एक अंतर्राष्ट्रीय चैम्पल से भेटवार्ता में उन्होंने स्वीकार किया था कि योगाभ्यास ने उनकी एकाग्रता को संबल देकर मानसिक रूप से मजबूत बनाया है। जिससे किसी भी असफलता से वे जल्दी ही उबर जाते हैं। बहरहाल, देश को उनसे और बड़ी कामयाबी की उम्मीदें हैं।

रामचरित मानस

कल के अंक में आपने पढ़ा था कि शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। उससे आगे का वर्णन क्रमानुसार प्रस्तुत है।

पत्नी सप्तसिन्धु सोई दीन्ही। गहि पद बिनय हिमाचल कीन्ही।

जाइ बिधिहि तिन्ह दीन्हि सो पाती। बाचत प्रीति न हृदयँ समाती।।

फिर हिमाचल ने वह लग्नपत्रिका सप्तसिन्धु को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्माजी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था।।

लग्न बाचि अज सबहि सुनाई। हरषे मुनि सब सुर समुदाई।।

सुमन बृष्टि नभ बाजन बाजे। मंगल कलस दसहुँ दिसि साजे।।

ब्रह्माजी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया, उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए।।

दो0-लगे सँवारन सकल सुर बाहन बिबिध बिमान।

होहि सगुन मंगल सुभद करहि अपछरा गान।।

सब देवता अपने भाँति-भाँति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएँ गाने लगीं।।

(क्रमशः...)

कूटनीति व राजनीति पर आगे निकली ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर केंद्र की भाजपा नीत सरकार के द्वारा अल्पसंख्यकों को लेकर तुष्टीकरण से लेकर बंगाल में बांग्लादेशियों को शरण देने का आरोप लगाया जाता रहा है। लेकिन इन दिनों बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और मीडिया में उक्त खबरें हर रोज आ रही हैं। ऐसे में भले ही देश के पीएम नरेंद्र मोदी का उक्त मुद्दे पर कोई बयान नहीं आया है लेकिन ममता बनर्जी ने सशक्त तौर पर इस अंतरराष्ट्रीय मुद्दे को उठाया है और बांग्लादेश की मोहम्मद युनुस सरकार को नाकाम तक करार दिया है। ममता बनर्जी ने बांग्लादेश से उपजे एक बयान का जवाब देते हुए साफ कहा कि, अगर वह लोग बिहार, बंगाल ओडिशा जैसे हमारे देश के राज्यों पर कब्जे की बात करेंगे तो वह बैठकर लालीपोप नहीं चूसेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बेहद गंभीर और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बात कही। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज राज्य विधानसभा में कहा कि, बांग्लादेश के हालात पर यूएन हस्तक्षेप करे और वहाँ विशेष शांति सेना भेजे।

भारत हमेशा से विश्व में शांति का प्रतीक रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि इस समय बांग्लादेश में टकराव का माहौल बन गया है। इसे निपटाने के लिए अंतरिम युनुस सरकार नाकाम नजर आती है। ऐसे में शांति सेना भेजकर वहाँ पर शांति स्थापित की जाए। ममता बनर्जी ने उक्त अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ खड़े होने की बात करते हुए यह सखित कर दिया है कि वह राजनीति से लेकर कूटनीति के मामलों में एक सफल नेता हैं और उन्हें पता है कि कब क्या करना चाहिए। साथ ही तुणमूल प्रमुख ने समाज को यह भी संदेश दिया कि, कुछ लोग आपसी सद्भावना को खराब कर सकते हैं ऐसे में शांति और सुझबझ से काम लेना चाहिए। देखा जाए तो बांग्लादेश के मामले पर मोदी सरकार से हिंदू समाज जिस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद कर



भारत हमेशा से विश्व में शांति का प्रतीक रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि इस समय बांग्लादेश में टकराव का माहौल बन गया है। इसे निपटाने के लिए अंतरिम युनुस सरकार नाकाम नजर आती है। ऐसे में शांति सेना भेजकर वहाँ पर शांति स्थापित की जाए।

रहा था वह नहीं दिखा। यह अलग बात है कि पीएम भले ही सामने नहीं आए हों लेकिन केन्द्र ने बांग्लादेश को संकेत में बता दिया है कि मामले पर भारत की आँखें बंद नहीं हैं। जबकि आरएसएस ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जाहिर की है। साथ केंद्र सरकार से सख्त कदम उठाने की अपील की है। कांग्रेस ने भी मुद्दे पर अपना पक्ष सामने रख दिया है। लेकिन देखा जाए तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी राजनीति से लेकर कूटनीति के मामलों में एक कदम आगे निकल गई हैं।

ममता बनर्जी जब सांसद थी तब भी बंगाल

अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं पर हिंसा की 88 घटनाएँ हुई हैं। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद युनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कहा कि, इन घटनाओं में 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पांच अगस्त से 22 अक्टूबर के दौरान अल्पसंख्यकों से संबंधित घटनाओं को लेकर कुल 88 मामले दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि मामलों और गिरफ्तारियों और बढ़ सकती हैं, क्योंकि कई क्षेत्रों में हिंसा की नई घटनाएँ सामने आई हैं। देखा जाए तो दरअसल, बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यक हिन्दू उत्पीड़न कोई नई बात नहीं हैं। वहाँ कोई भी सरकार हो निशाने पर हिन्दू महेशा रहे हैं।

इतक बांग्लादेश में तत्कालीन घटना की करें तो इस्कांन के संन्यासी चिन्मय कृष्ण दास के गिरफ्तारी से शुरु हुई। पहले इन्हें राइट्रोह के आरोप में फिर इनके सहयोगियों को हिरासत में लिया गया है। यहाँ तक कि जेल में इन साधुओं को बाहर से भोजन उपलब्ध कराने के नाते भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, क्योंकि अपने भोजन संबंधित नियमों के नाते ये कुछ भी और कही का भी खाना नहीं खा सकते हैं। फिर जब हिन्दू समाज ने विरोध शुरु किया तो उनके उपर हमलें शुरु हो गए और हिंदू समुदाय को आज वहाँ यातना झेलनी पड़ रही है। बहरहाल दो देशों को सामने रख कर अगर सरल शब्दों में राजनीति व कूटनीति की बात करें तो कहा जा सकता है कि राजनीति में कब क्या बदल जाए कोई कह नहीं सकता। यहाँ कुछ भी दावे के साथ स्थायी नहीं होता है। लेकिन कूटनीति की बात करें तो कहा जा सकता है कि जब बात देश व उससे जुड़े लोग और मुद्दों की बात हो तो वहाँ राजनीति नहीं की जा सकती बरन वहाँ कूटनीति ज्यादातर कारगर होती है। देखा जाए तो उपरोक्त मुद्दे पर ममता बनर्जी एक कदम आगे निकली दिख रही हैं।

- जगदीश यादव
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)।

साइबर क्राइम से निजी जानकारी-सुरक्षा को खतरा

वर्तमान युग तकनीकी व साइबर विकास का है, प्रौद्योगिक क्रांति का है। अनेक कार्य तकनीकी की सहायता से सुगम हो चुके हैं। सभी कार्य आसानी से घर बैठे सम्पन्न हो जाया करते हैं। बाजार की पहुँच भी घर तक सुनिश्चित हो चुकी है, लेकिन इसी क्रम में अपराधियों की पहुँच भी सीधे घर तक हो गई है। फलक झपकते ही अपराधी अपने मंसूबों को अंजाम दे डालते हैं। भारत जहाँ विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, मगर दूसरी तरफ अपराधी भी अपना तकनीकी विकास कर धड़ले से लोगों की मेहनत की कमाई उड़ा रहे हैं। तकनीक में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध ने लोगों की निजी जानकारी और सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। साइबर अपराध के कई प्रकार हैं, चाहे वो जानकारी चोरी करना हो, हैकिंग हो, फिशिंग हो, वायरस फैलाना हो, साँपटवेयर पाइरेसी, फर्जी बैंक कॉल, सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अफवाह फैलाना व साइबर बुलिंग इत्यादि हो। इस प्रकार के अपराधों में निरंतर वृद्धि चिंताजनक है। जिस देश का प्रधानमंत्री स्वयं मन की बात जैसे देशव्यापी कार्यक्रम के माध्यम से चिंता व्यक्त कर इससे बचने हेतु आगाह कर रहा हो, सोचिए वो कितनी बड़ी समस्या बनती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी का देशवासियों से आग्रह है कि जब भी कोई कॉल आए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। इस क्रम को अपनाने की आवश्यकता है।

एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2022 में साइबर क्राइम के 65893 मामले देश भर में दर्ज किए गए हैं। साल 2021 में 52974 मामले दर्ज किए गए थे। इस तरह एक साल के दौरान साइबर अपराध में 24.4 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। इनमें भी करीब 65 फीसदी मामले धोखाधड़ी के ही हैं। यानी 65893 मामलों में 42710 धोखाधड़ी के मामले हैं, जबकि 36448 मामले जबरन उगाही के हैं। 2023 व 2024 में भी स्थिति कोई संतोषजनक नहीं, बल्कि ये छलांग मार कर तेज गति से बढ़ रहे हैं। भारत में उभरती साइबर सुरक्षा चुनौतियों के लिए निरंतर नवाचार और तत्परता की आवश्यकता है।



इनसे बचाव के लिए कदम उठाना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। साइबर अपराधों से जुड़ी कुल लागत और जोखिम लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए रोकथाम प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों को लगातार लागू करने, निगरानी करने और अपग्रेड करने की आवश्यकता भी बढ़ रही है। विदेशी विरोधियों, आतंकवादियों और रोजमर्रा के घोटालेबाजों के बीच, साइबर हमले ज्यादा चालाक और ज्यादा परिष्कृत होते जा रहे हैं।

साइबर सुरक्षा में विशेषज्ञता रखने वाली संस्थाओं और स्टार्टअप के साथ साझेदारी करने से नए विचार और विशेष विशेषज्ञता सामने आ सकती है। यह समग्र दृष्टिकोण न केवल व्यवसायों और व्यक्तियों की सुरक्षा करेगा, बल्कि भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र विकास में भी योगदान देगा। भारत भर में एक परेशान करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें साइबर धोखाधड़ी ग्रामीण इलाकों में सीमित डिजिटल जानकारी रखने वाले लोगों से लेकर शहरी इलाकों में तकनीकी रूप से दक्ष लोगों तक को अंधाधुंध तरीके से निशाना बना रही है। भारत आज भले ही डिजिटल विकास के छोर पर आकर बैठा है, लेकिन कंपनियों को सुनिश्चित करना है कि वे डिजिटल विकास से आने वाले अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार

हैं भी या नहीं। ऐसा करने का एकमात्र तरीका यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी व बोर्ड के एजेंडे में साइबर सुरक्षा सर्वोपरि हो ताकि डिजिटल संग्रह की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भले मानने योग्य है कि जागरूकता की कमी है, लेकिन हैकर सब कुछ इस तरीके से करते हैं कि आपकी जागरूकता धरी की धरी रह जाती है। इसमें सुरक्षा उपायों की कमी महसूस होती है। सरकार व प्रशासन अपने स्तर पर हरसंभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण व आवश्यक इलाज जागरूकता ही प्रतीत होती है। साइबर अपराध एक सामान्य शब्द है जो कंप्यूटर, नेटवर्क या डिजिटल उपकरणों के किसी अन्य सेट का उपयोग करके की जाने वाली असंख्य अपराधिक गतिविधियों का वर्णन करता है। साइबर अपराध को साइबर अपराधियों

द्वारा की जाने वाली अवैध गतिविधियों की विशाल श्रृंखला के अंतर्गत माना जाता है। इनमें हैकिंग, फिशिंग, पहचान की चोरी, रेनसमवेयर और मैलवेयर हमले, कई अन्य शामिल हैं। साइबर अपराध की पहुँच कोई भौतिक सीमा नहीं जानती। अपराधी, पीड़ित और तकनीकी अवसरचना दुनिया भर में फैली हुई है। व्यक्तिगत और उद्यम स्तर पर सुरक्षा कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ, साइबर अपराध कई रूप लेता है और लगातार विकसित होता रहता है। बदले में, साइबर अपराधों की प्रभावी जांच, मुकदमा चलाने और उन्हें रोकने की क्षमता कई गतिशील चुनौतियों के साथ एक सतत लड़ाई है। साइबर अपराध व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारी संस्थाओं के लिए एक गंभीर खतरा हैं और इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान, प्रसिद्धि को नुकसान और रिकॉर्ड से समझौता हो सकता है।

जैसे-जैसे तकनीक आगे बढ़ती है और अधिक से अधिक लोग मानक संचालन के लिए डिजिटल उपकरणों और नेटवर्क पर निर्भर होते हैं, साइबर अपराध का खतरा बढ़ता जा रहा है। इनसे बचाव के लिए कदम उठाना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। साइबर अपराधों से जुड़ी कुल लागत और जोखिम लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए रोकथाम प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों को लगातार लागू करने, निगरानी करने और अपग्रेड करने की आवश्यकता भी बढ़ रही है। विदेशी विरोधियों, आतंकवादियों और रोजमर्रा के घोटालेबाजों के बीच, साइबर हमले ज्यादा चालाक और ज्यादा परिष्कृत होते जा रहे हैं। व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारी संस्थाओं को साइबर अपराध को सुरक्षा प्रणालियों में घुसपैठ करने और संवेदनशील डेटा में घुसपैठ करने से रोकने के लिए सक्रिय उपाय करने चाहिए। जबकि कुछ साइबर अपराध रोकथाम रणनीतियाँ हमलावरों को रोकने में दृढ़ हैं, इन पहलों का समर्थन करने में मदद करने के लिए आधुनिक तकनीकों की एक नई लहर भी आई। इसके बावजूद सचेत होकर कार्य करने की जरूरत है।

-प्रो. मनोज डोगरा

मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष : प्रतिपदा

राशिफल

(विक्रम संवत् 2081)



मेष- (वृ, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ)
पराक्रम बढ़ेगा। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रहेगा। प्रेम, संतान की स्थिति सुधर चुकी है।



वृष- (ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो)
धन बढ़ेगा। कुटुंब में वृद्धि होगी। जुवान नियंत्रण में रखिएगा और धन बढ़ेगा तो निवेश मत करिएगा।



मिथुन- (का, की, कु, घ, उ, छ, के, हो, हा)
बहुत अच्छी ऊर्जा आपमें रहेगी। आकर्षक दिखेंगे। समाज में सराहें जाएंगे। स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है।



कर्क- (ही, हू, हे, हो, अ, डी, डू, डे, डा)
मन चिंतित। तन की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं। प्रेम, संतान भी मध्यम है। व्यापार भी मध्यम है।



सिंह- (मा, मी, मु, मे, मो, टा, टी, टू, टे)
आय के नवीन स्रोत बनेंगे। पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे। स्वास्थ्य पहले से बेहतर।



कन्या- (टो, पा, पी, पु, ष, ण, ट, पे, पो)
स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी।



तुला- (रा, री, रु, रे, रो, ता, ती, तू, त)
परिस्थितियाँ अनुकूल हो गई हैं। स्वास्थ्य में सुधार। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी। व्यापार अच्छा



वृश्चिक- (तो, ना, नी, नु, ने, नो, या, यी, यु)
चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें।



धनु- (ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ठा, भे)
भाग्यवर्धक दिनों का निर्माण हो रहा है। स्वास्थ्य मध्यम है। प्रेम, संतान मध्यम है लेकिन व्यापार अच्छा है।



मकर- (भो, जा, जी, जू, जे, जो, खा, खी, खू, खे, गा, गी)
शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे। कार्य विघ्न-बाधा के साथ संपन्न होंगे। सरकारी पगेबाजी न करें। पिता से दूरी दिख रही है।



कुम्भ- (गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, घो, द)
भावुक होकर कोई निर्णय मत लीजिएगा। हालाँकि प्रेम, संतान की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है।



मीन- (दी, दु, झ, घ, दे, दो, च, चा, चि)
भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी के प्रबल योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य मध्यम। प्रेम, संतान अच्छा।

किसानों की समस्या को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले सपा जिलाध्यक्ष

सपा मुखिया ने मीडिया के सामने उठाई आवाज



ग्रेटर नोएडा। जनपद गौतमबुद्ध नगर में आंदोलनकारी किसानों को जेल भेजने के मामले में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुधीर भाटी ने शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की बहुत जनपद गौतमबुद्ध नगर में हो रहे किसानों का हो रहे उत्पीड़न के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताया। यह जानकारी देते हुए सुधीर भाटी ने बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने जनपद गौतम बुद्ध नगर में हो रहे किसानों के उत्पीड़न को लेकर मुलाकात की और शासन प्रशासन द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचार के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनपद गौतमबुद्ध नगर में किसानों के उत्पीड़न के विरुद्ध समाजवादी पार्टी द्वारा लोकसभा और विधानसभा में आवाज उठाने का आश्वासन दिया है। अखिलेश यादव ने शनिवार को मीडिया के सामने किसानों के उत्पीड़न के इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया।

विश्व हिंदू परिषद ने निकाली शौर्य यात्रा



नोएडा (चेतना मंच)। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से शौर्य यात्रा निकाली गई। इसमें सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। यात्रा का शुभारंभ विश्व हिंदू परिषद के मुख्य वक्ता प्रेम भाईसाहब सह-सेवा प्रमुख मेरठ प्रान्त ने किया। यात्रा का संचालन कर रहे बजरंग दल के नोएडा महानगर संयोजक सुमित ने बताया कि यात्रा को नेतृत्व नोएडा महानगर अध्यक्ष छाया सिंह, ललित भारद्वाज की विभागा संयोजक, दिनेश

राष्ट्रीय लोक अदालत में 589671 वादों का हुआ निस्तारण : अरुणोश सक्सेना

नोएडा (चेतना मंच)। दीवानी न्यायालय गौतमबुद्धनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। उक्त अवसर पर समस्त न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित हुए। श्रीमती ऋचा उपाध्याय, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित हुये वादों से संबंधित विवरण उपलब्ध कराये गये।



राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन मुख्यालय व तहसील स्तर पर जनपद न्यायाधीश गौतमबुद्धनगर अरुणोश सक्सेना की अध्यक्षता में दीवानी न्यायालय गौतमबुद्धनगर में किया गया। जिसमें जनपद न्यायालय में कार्यरत न्यायिक अधिकारीगण द्वारा कुल 160500 वाद तथा प्री-लिटिगेशन स्तर पर राजस्व न्यायालय द्वारा 91265 मामले तथा बैंक द्वारा 365 मामलों, एन0पी0सी0एल0 द्वारा 112 मामलों व यू0पी0पी0सी0एल द्वारा 2680 मामलों तथा श्रम न्यायालय द्वारा 113 मामलों व धनराशि 2478991 है,

पुलिस विभाग द्वारा 7272 मामलों का निस्तारण किया गया। वी0ए0ए0ए0ए0ए0 द्वारा 25 मामलों तथा यातायात विभाग द्वारा 300202 मामलों का निस्तारण किया गया तथा परिवहन विभाग द्वारा 23963 मामलों का निस्तारण किया गया। इस प्रकार प्री-लिटिगेशन के 429171 मामलों निस्तारित हुये। ऋचा उपाध्याय, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि जनपद गौतमबुद्धनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 589671 वाद

निस्तारित हुये। राष्ट्रीय लोक अदालत के अन्तर्गत पुलिस विभाग द्वारा 7272 मामलों का निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के अन्तर्गत जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी व तहसीलदार आदि समस्त विभागों से प्राप्त विवरण के अनुसार राजस्व के 91265 वाद निस्तारित हुये। उपरोक्तानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 589671 मामलों का निस्तारण हुआ। जिसमें सम्झौता धनराशि 230410881 है।

एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा की हुई बैठक

नोएडा (चेतना मंच)। बैठक में अलग-अलग राज्यों के 35 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। देश के ढाई सौ किसान संगठनों को मिलाकर एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा का दो वर्ष पूर्व गठन किया गया था जो किसानों की हरेक फसल पर एमएसपी गारंटी कानून के लिए पूरे देश में बैठकों के माध्यम से केंद्र सरकार तक किसानों की बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा रेखा सिवाल, प्रदेश अध्यक्ष हातम सिंह भाटी, प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल भाटी, भारतीय किसान यूनियन (बलराज) का देश के अलग अलग राज्यों में बैठकों का दौर जारी है।



आन्दोलन किए जाने की बात कही है भारतीय किसान यूनियन (बलराज) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी ने चैनई में शनिवार को हुई मोर्चा की बैठक में नोएडा पुलिस प्रशासन द्वारा किसानों के साथ हुए बर्बरतापूर्ण रवैए और प्राधिकरणों द्वारा लिखित करार नामों से किसानों की भूमि अधिग्रहण कर उनके अधिकारों से वंचित कर प्राधिकरण की हठधर्मी की बात उठाई गई। जिसमें एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा ने नोएडा में किसानों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन (बलराज) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी को पूर्ण समर्थन देते हुए किसानों को उनका हक अधिकार की लड़ाई के लिए समर्थन किया है। इस अवसर पर तमिलनाडु, केरल, आन्ध्र प्रदेश मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली प्रदेश, उत्तर प्रदेश, व अन्य राज्यों के 35 बड़े किसान संगठन सम्मिलित हुए।

जीवन एक परीक्षा है, उसमें हिम्मत और जोश बनाये रखना जरूरी है : भोलानाथ कुशवाहा

चेतना महोत्सव मिर्जापुर में विजेता बच्चों को किया गया पुरस्कृत

मिर्जापुर। साहित्य चेतना समाज की मौरापुर इकाई के तत्वावधान में विध्वंसिनी महाविद्यालय के क्रिस्टल हॉल में विचार को चेतना महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ अध्यक्षता कर रहे डॉ नरेश त्रिपाठी, मुख्य अतिथि पद्मश्री उर्मिला श्रीवास्तव, विशिष्ट अतिथि राजपति ओझा और सुभाष वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रसिद्ध गायक देवा ने सरस्वती वंदना व देवी गीत से सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रारंभ किया। आचार्य राम चंद्र शुक्ल विद्यालय के बच्चों ने सरस्वती वंदना, स्वागत गान और बाल विवाह अपराध है विषय पर नाटक प्रस्तुत किया। गायिका कल्पना गुप्ता ने गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉ नरेश त्रिपाठी ने अपने वक्तव्य में कहा कि प्रतियोगिताओं से बच्चों का व्यक्तित्व निर्माण होता है। जो उनके जीवन के लिए उपयोगी है। मुख्य अतिथि पद्मश्री उर्मिला श्रीवास्तव ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं उन्हें अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करना हमारा दायित्व है। वरिष्ठ साहित्यकार भोलानाथ कुशवाहा ने संदेश दिया कि जीवन एक परीक्षा है। जरूरी है हिम्मत और जोश बनाये रखने की। साहित्य चेतना समाज के संस्थापक अमरनाथ तिवारी ने संस्था के बारे में जानकारी दी। अतिथियों की अंगवस्त्र, माल्यार्पण और स्मृति चिह्न देकर संगठन सचिव सुधाकर त्रिपाठी व सासाराम से आये संस्था के निर्णायक श्री मनोज ने सम्मनित किया। संचालन आनंद अमित, पूजा यादव व सृष्टि राज ने संयुक्त रूप से किया। स्वागत भाषण कुल भूषण पाठक ने दिया। ज्ञात हो कि गत तीन नवम्बर को आयोजित सामान्य ज्ञान एवं निबन्ध प्रतियोगिता में चयनित प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इन 49 बच्चों को मुख्य अतिथि पद्मश्री उर्मिला श्रीवास्तव, अध्यक्ष डॉ नरेश त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि राजपति ओझा, सुभाष वर्मा, अमरनाथ तिवारी, साहित्यकार केदारनाथ सविता, प्रमोद गुप्ता, सारिका चौरसिया, नंदिनी वर्मा, जय कुमार, आनंद केसरी, शंकर राय ने अपने कर कमलों से मंच पर मोमेंटो और प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में सीताराम, मेवालाल, मिलन, रमेश प्रजापति, राकेश शुक्ल, स्कूलों के प्रधानाचार्य और अनेक अभिभावक उपस्थित रहे। अंत में आनंद अमित ने सभी का धन्यवाद प्रकट किया।



इस अवसर पर तमिलनाडु, केरल, आन्ध्र प्रदेश मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली प्रदेश, उत्तर प्रदेश, व अन्य राज्यों के 35 बड़े किसान संगठन सम्मिलित हुए।

इस अवसर पर तमिलनाडु, केरल, आन्ध्र प्रदेश मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली प्रदेश, उत्तर प्रदेश, व अन्य राज्यों के 35 बड़े किसान संगठन सम्मिलित हुए।

प्राधिकरण अधिकारी स्थानीय किसानों के वाजिब हकों को देना नहीं चाहते : दीपक चोटीवाला

ग्रेटर नोएडा (चेतना मंच)। जिला कांग्रेस कमेटी गौतमबुद्ध नगर के तत्वावधान में कल जिला कांग्रेस कार्यालय बिसरख पर जनपद गौतमबुद्ध नगर में चल रहे किसान आंदोलन और आगामी 18 दिसंबर बुधवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर होने जा उत्तर प्रदेश विधानसभा घेराव के संबंध में एक विशेष वार्ता आयोजित की गयी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष दीपक भाटी चोटीवाला ने बताया कि गौतमबुद्ध नगर में जिस प्रकार तीनों औद्योगिक विकास प्राधिकरण और प्रशासनिक अधिकारी स्थानीय किसानों के वाजिब हकों को देना नहीं चाहते, दशकों से संघर्ष करते आ रहे किसानों की सुनवाई न तो जनपद में पदस्थ अधिकारी करना चाहते हैं और न ही उत्तर प्रदेश की सरकार को कोई खास सरोकार यहाँ के किसानों से है। किसानों के प्रतिरोध करने के अधिकार को भी सरकार ने पंगु कर दिया है आंदोलन कर रहे सैकड़ों किसानों को अकारण जेल में डाला गया है। विगत सप्ताह गौतमबुद्ध नगर पहुंचे कांग्रेस के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को जेल में किसानों से मिलने से रोका गया और जिला अधिकारी महोदय ने वार्ता में आश्वासन दिया था कि शीघ्र किसानों को रिहा करके वार्ता के लिए



स्वस्थ माहौल बनाया जायेगा, मगर अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष दीपक भाटी चोटीवाला ने कहा ऐसे ही अनेक जर्जरित से जुड़े प्रश्न विषय उत्तर प्रदेश की सरकार का उत्तर चाहते हैं और इन्हीं जवाबों को मांगने के लिए गौतमबुद्ध नगर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता 18 दिसम्बर को लखनऊ में होने वाले विधान सभा घेराव में शामिल होंगे, और यदि सपनों के इन शहरों को बसाने वाले भगीरथ समान स्थानीय किसानों के साथ सरकारी ज्यादती नहीं रुकी तो इन्हीं जाड़ों में

ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन

ग्रेटर नोएडा (चेतना मंच)। ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन प्रज्ञा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल डुहरा में खंड शिक्षा अधिकारी मोहम्मद राशिद की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी मोहम्मद राशिद डाइट मैटर राजेश खन्ना श्रीमती दीपि शर्मा प्रधानाध्यापक प्रज्ञा पब्लिक स्कूल डीसी राकेश कुमार अमोल शर्मा के द्वारा किया गया। सभी वर्ग की दौड़ प्रतियोगिता में छात्रों का खूबोशी रही कबड्डी में जेवर खादर की टीम प्रथम रही को को बालक एवं बालिका टीम की टीम प्रथम रही ऊंची कूद दुष्यंत साबोता गोला फेक कौशल वीर चारोली मदीना महादेवपुरम दौड़ 600 मी गुंजन दस्तमपुर हिमांशु मुंई हंसराज लंबी कूद राजपुर रिया रामपुर प्राइमरी वर्ग में खरील अनवरगढ़ प्रथम विजेता रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम में नगला बंजारा प्रथम विजेता टीम



रही समापन समारोह में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी विजेता छात्रों को प्रशस्ति पत्र मेडल आदि से पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर नरेश कौशिक दीवान सिंह पदम सिंह हरेन्द्र शर्माजगवीर भाटी रति गुप्ता अर्चना शिरोमणि महेश कुमार सरिका गोयल आदित्य शर्मा संदीप अत्री हिमांशु भाटी अमित कुमार डॉ रवि करण अनामिका सांथाली रावत नीतू यादव आदि सहित अन्य अध्यापक मौजूद रहे।

युवक लापता रिपोर्ट दर्ज

ग्रेटर नोएडा (चेतना मंच)। कुलेसरा गांव निवासी मनोज ठाकुर के पुत्र नवीन ठाकुर गत दिनों दिल्ली गए थे, लेकिन उसके बाद घर वापस नहीं आए। इसकी रिपोर्ट पुलिस चौकी कुलेसरा में दर्ज करा दी गई है। बताया जाता है कि कुलेसरा निवासी मनोज ठाकुर के पुत्र नवीन ठाकुर दिल्ली गए थे लेकिन उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। परिजनों ने काफ़ी खोजबीन के बाद स्थानीय पुलिस चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर दी है।



सपा सांसद इकरा हसन का हुआ स्वागत



ग्रेटर नोएडा (चेतना मंच)। कैराना लोकसभा क्षेत्र की सांसद इकरा हसन गत दिवस गौतमबुद्धनगर जिले के दौरे पर आई थीं। इस दौरान उन्होंने मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के



जिला अध्यक्ष कुंवर नादिर शाह के हल्लोनी स्थित आवास पर पहुंची जहां उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष कुंवर नादिर

वेयरहाउस से फोर चोरी
ग्रेटर नोएडा (चेतना मंच)। दादरी के बेरापुर नई बस्ती में स्थित वेयरहाउस से दो कर्मचारियों ने मोबाइल फोन चोरी कर लिया। कंपनी के अस्सिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर ने दोनों के खिलाफ थाना दादरी में मुकदमा दर्ज कराया है। डिलीवरी कंपनी के वेयरहाउस में कार्यरत अस्सिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर वीरेंद्र ने दो कर्मचारियों के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। दर्ज रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि बीते 7 दिसंबर की रात्रि को कंपनी के कर्मचारी सुरेंद्र व विवेक ने सैलसंग कंपनी का मोबाइल फोन चोरी कर लिया। चोरी की घटना की जानकारी मिलने पर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।

दैनिक चेतना मंच
भगवान हनुमान बजरंग बली के अवतार श्री बालाजी (मैहदीपुर) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार-पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में समर्पित है।
डाक पंजी. सं. L-10/GBD-574/99
RNI No. 69950/98
स्वामी पदक प्रकाशक
रामपाल सिंह रघुवंशी
ने बीएफएल इन्फोटेक लि. सी-9, सेक्टर-3, नोएडा, गौतमबुद्धनगर (यू.पी.) से छपायाकर, ए-131 सेक्टर-83, नोएडा से प्रकाशित किया।
संपादक-रामपाल सिंह रघुवंशी
Contact:
0120-2518100,
4576372, 2518200
Mo.: 9811735566,
8750322340
E-mail:
chetnamanch.pr@gmail.com
raghuvanishrampal365@gmail.com
raghuvanishi_rampal@yahoo.co.in
www.chetnamanch.com

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण देगा एक लाख का इनाम बल्क वेस्ट जनरेटरों के लिए फिर शुरू की स्वच्छता रैंकिंग प्रतियोगिता

ग्रेटर नोएडा (चेतना मंच)। ग्रेटर नोएडा की स्वच्छता मुहिम को आगे बढ़ाने हेतु प्राधिकरण ने बल्क वेस्ट जनरेटरों (रिहायश और गैर रिहायश दोनों) के लिए स्वच्छता रैंकिंग प्रतियोगिता फिर से शुरू किया है। प्रतियोगिता में पहले पायदान पर रहने वाले बल्क वेस्ट जनरेटरों को एक-एक लाख रुपये का इनाम मिलेगा। यह पुरस्कार राशि रिहायश और गैर रिहायश दोनों ही कैटेगरी में दी जाएगी। इसी तरह दूसरे स्थान पर रहने वालों को 75-75 हजार रुपये (दोनों कैटेगरी में) व तीसरे स्थान पर रहने वाले बल्क वेस्ट जनरेटरों को 50-50 हजार रुपये (दोनों कैटेगरी में) इनाम मिलेगा।

दरअसल, ग्रेटर नोएडा में ठोस अपशिष्ट कूड़ा प्रबंधन नियम 2016 लागू है। इसके तहत बल्क वेस्ट जनरेटरों को कूड़े का निस्तारण खुद से करना होता है। प्राधिकरण री-साइकिल न हो पाने वाले इनट वेस्ट को ही उठाता है। अधिकतर सोसाइटियां, स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान और उद्योग आदि बल्क वेस्ट जनरेटर की



श्रेणी में आते हैं। स्वच्छता मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने बल्क वेस्ट जनरेटरों के लिए स्वच्छता रैंकिंग प्रतियोगिता शुरू की है। प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग ने बल्क वेस्ट जनरेटर करने वाली सभी रिहायशी सोसाइटियों (बिल्डर व को-ऑपरेटिव सोसाइटियां) और गैर रिहायशी संस्थानों (स्कूल, कॉलेज व

अन्य शिक्षण संस्थान और उद्योग आदि) से आवेदन मांगे हैं। बल्क वेस्ट जनरेटर इस प्रतियोगिता के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये लिंक सोमवार से ओपन होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। प्राधिकरण ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए कई पैरामीटर तय किए हैं। इससे जुड़ी

जानकारी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट (www.greaternoidaauthority.in) पर अपलोड की गई है। 16 से 31 दिसंबर के बीच आने वाले आवेदनों का परीक्षण जनवरी के प्रथम सप्ताह में किया जाएगा। 9 जनवरी से 20 जनवरी तक प्राधिकरण की टीम बल्क वेस्ट जनरेटरों का वेरिफिकेशन करेगी और 22 जनवरी को प्रतियोगिता के विजेताओं का एलान किया जाएगा। 26 जनवरी को विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा।

इस प्रतियोगिता में पहले पायदान पर रहने वाले बल्क वेस्ट जनरेटरों को एक-एक लाख, दूसरे स्थान पर रहने वालों को 75-75 हजार, तीसरे स्थान पर रहने वालों को 50-50 हजार और बाकी 4 सफल आवेदकों को सांत्वना पुरस्कार के रूप में 25-25 हजार रुपये दिए जाएंगे। ये सभी पुरस्कार दोनों ही कैटेगरी (रिहायश और गैर रिहायश) में दिए जाएंगे। प्राधिकरण की एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस ने ग्रेटर नोएडा के सभी वेस्ट जनरेटरों की स्वच्छता रैंकिंग प्रतियोगिता में बढ़-चढ़कर लेने के लिए आमंत्रित किया है।

हथियारों के दो तस्करों को गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा (चेतना मंच)।

थाना बीटा-2 पुलिस ने अवैध हथियारों के दो तस्करों को गिरफ्तार किया है उनके पास से तीन पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस व चोरी की बाइक बरामद हुई है।

उप निरीक्षक उत्तम कुमार पुलिस टीम के साथ गत पर थे। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बाइक पर सवार होकर दो हथियार तस्कर सिग्मा गोल चक्रर होते हुए दनकौर की तरफ जाने वाले हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने सिग्मा गोल चक्रर की तरफ से आने वाले रास्ते पर बैरियर लगाकर चेंकिंग शुरू कर दी। मुखबिर के इशारे पर एक बाइक पर आ रहे दो युवकों को रुकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखकर बाइक सवार ने भागने का प्रयास किया। हड़बड़ी में मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर डिवाइडर से

टकराकर गिर गई जिसके बाद पुलिस टीम ने दोनों लोगों को दबोच लिया।

तलाशी में उनके पास से तीन देशी पिस्टल, 40 कारतूस, बरामद हुए। पूछताछ में पकड़े गए बदमाशों ने अपना नाम कुणाल नागर पुत्र प्रेमचंद नागर निवासी ग्राम कल्याण थाना बादलपुर व लव पुत्र संजय निवासी ग्राम सादोपुर थाना बादलपुर बताया। पूछताछ में दोनों बदमाशों ने बताया कि वह बुलंदशहर के औरंगाबाद से पिस्टल खरीद कर लाते हैं और उसे महंगे दामों में बेचकर मुनाफा कमाते हैं। उनसे बरामद हुई पिस्टलों को वह बेचने के लिए जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से पकड़ी गई बाइक भी चोरी की है।

थाना प्रभारी ने बताया कि इस बात की जांच पड़ताल की जा रही है कि पकड़े गए बदमाशों ने अब तक किन-किन लोगों को अवैध हथियारों की सप्लाई की है।

फैक्टरी से चोरी सामान के साथ दबोचा

ग्रेटर नोएडा (चेतना मंच)। थाना दादरी पुलिस ने दो शांति बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की 26 मोटर, एक अल्टीनेटर तमचा कारतूस व स्विफ्ट डिजायर कार बरामद हुई है। पकड़े गए दोनों बदमाश एक बंद पड़ी फैक्ट्री में चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद सामान को बेचने की फिराक में थे। थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस टीम कैमराला चक्रसेनपुर गांव के पास चेंकिंग कर रही थी। इस दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि दो बदमाश स्विफ्ट कार में सवार होकर चोरी के सामान को बेचने के लिए सूरजपुर की तरफ जाएंगे। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने एक डिजायर कार को जांच के लिए रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखकर बदमाशों ने भागने का प्रयास किया लेकिन पुलिस टीम ने दोनों बदमाशों को दबोच लिया। पूछताछ में कर चालक ने अपना नाम वीरेश उर्फ वीर व दूसरे बदमाश ने अपना नाम नीरेश बताया। तलाशी में उनके पास से एक तमचा, कारतूस बरामद हुए। कार की तलाशी लेते पर उसमें से छोट्टी बड़ी 24 मोटर, दो मोटर बड़ी एक अल्टीनेटर बरामद हुआ। पकड़े गए दोनों बदमाशों ने बताया कि उन्होंने जेके सुपर सोमेट के सामने पुराना मिल कासिमपुर रोड हरिद्वार गंज अलीगढ़ में बंद पड़ी मिल से यह सारा सामान चोरी किया था। चोरी के इस सामान को बेचने के लिए वह सूरजपुर की तरफ आ रहे थे।

अतुल सुभाष सुसाइड केस: पत्नी निकिता गुरुग्राम से अरेस्ट, मां और भाई प्रयागराज से गिरफ्तार



नई दिल्ली (एजेंसी)। अतुल सुभाष सुसाइड केस में अला रह रही पत्नी निकिता सिंचानिया, उसकी मां निशा और भाई अनुराग को आत्महत्या के लिए ऊकसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पत्नी निकिता को गुरुग्राम से अरेस्ट किया गया है, जबकि मां और भाई प्रयागराज से गिरफ्तार किए गए हैं। अतुल ने कुछ दिनों पहले ही निकिता और उनके परिवार पर उपीड़न और जबरन वसूली का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। सभी को अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

इससे बेगलूर पुलिस ने निकिता सिंचानिया के जौनपुर में स्थित मकान पर नॉटिस लगाया था। नॉटिस में 3 दिन में बयान दर्ज करने के लिए कहा गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में निकिता


सिंचानिया, निशा सिंचानिया और अनुराग सिंचानिया की तरफ से अंतरिम जमानत के लिए अर्जी लगाई गई है। बता दें कि पत्नी और ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने और न्याय व्यवस्था में खामी का आरोप लगाकर सुसाइड करने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने डेढ़ घंटे के वीडियो के साथ 23 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा था। इसमें उन्होंने शादी की शुरुआत से लेकर पत्नी से विवाद के बाद खुद पर लगे एक-एक केस और सुसाइड की ओर ढकेलने वाले हर घाट के विस्तार से समझाया था। अतुल ने आत्महत्या से पहले खुद पर देहज उपीड़न से लेकर हत्या समेत कई मामले दर्ज करने से लेकर सुसाइड के लिए ऊकसाने का आरोप अपनी पत्नी निकिता सिंचानिया, सास निशा, पत्नी के भाई अनुराग और पत्नी के चाचा सुशील पर लगाया है।

जम्मू-कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ सत्ता शेर करना विनाश की रेसिपी की तरह

सीएम उमर ने कहा-जल्द से जल्द जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाए

नई दिल्ली (एजेंसी)। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ सत्ता शेर करना विनाश की रेसिपी की तरह है। उन्होंने कहा कि डबल पावर सेंटर सिस्टम कभी काम नहीं करेगा। उमर ने यह बात एक साक्षात्कार में कही।

सीएम उमर ने कहा कि मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि किसी भी जगह डबल पावर सेंटर होना आपदा का कारण बन सकता है। अगर कई पावर सेंटर हैं तो कोई भी संगठन ठीक से काम नहीं कर सकता है। यही कारण है कि हमारी खेल टीम में एक कप्तान होता है, दो नहीं। उमर ने केंद्र सरकार से अपना वादा निभाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर के स्पेशल स्टेट्स को खत्म कर दिया था। इस दौरान इसे दो केंद्र शासित



प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां कि सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ पावर शेर करती

है। ये कड़वा और विवादास्पद अनुभव है। दिल्ली छोटा राज्य है, जबकि जम्मू और कश्मीर एक बड़ा और रणनीतिक एरिया है। उन्होंने कहा कि पिछले दो महीनों में जब से मैं सीएम बना हूँ मुझे अभी तक एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिला जहां जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश होने से कोई लाभ मिला हो। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जहां शासन या विकास का काम जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण मिला हो।

सीएम उमर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव केवल सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप कारण ही हो सके। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने जितना अस्पष्ट फैसला दिया। अब्दुल्ला ने स्वीकार किया कि जम्मू-कश्मीर के हाइब्रिड राज्य बने रहने की स्थिति में उनके पास एक बैकअप योजना है। उन्होंने कहा कि मेरे पास बैकअप योजना नहीं होगी तो यह मूर्खता होगी।

सीरिया से लौटे भारतीयों ने बताया खौफनाक मंजर : चौतरफा धमाके और सड़कों पर दौड़ते टैंक

नई दिल्ली। सीरिया से वापस लौटे भारतीयों ने दिल दहला देने वाली हवाइ अट्टे पर मीडिया से बातचीत के दौरान इन लोगों ने गोली और बम की आवाजों के बीच रहने के अपने खौफनाक मंजर को याद किया। चंडीगढ़ के रहने वाले इंजीनियर सुनील दत्त ने आपबीती बयां करते हुए कहा कि वहां सड़कों पर असामाजिक तत्व खुलेआम घूम रहे हैं और लोगों से खुल-खुल पूछा सामान लूटा जा रहा है। गोलीबारी और बमबारी की आवाजों ने वहां जीवन को और भी बदतर बना दिया है। विद्रोहियों ने कई अन्य प्रमुख शहरों और कस्बों पर कब्जा करने के बाद राजधानी दमिश्क पर अपना पूरा कंट्रोल बना लिया था। ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिव कपूर ने कहा, 'बम करीब सात महीने तक सीरिया में थे। 17 दिसंबर को स्थिति और खराब हो गई। हमें दमिश्क शहर में शिफ्ट कर दिया गया और फिर हमने चारों ओर आग और बमबारी देखी। यह एक दहशत का माहौल था। हम एक लज्जरी होटल में 11 लोगों की टीम में थे। स्थिति और खराब हो गई। लोग सड़कों पर बेकाबू हो रहे थे, कुछ लोग लूटपाट भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास हमसे लगातार संपर्क में था और उनके कर्मियों ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें शांत रहने और दरवाजे न खोलने की सलाह दी। भारत ने सीरिया से अपने सभी नागरिकों को निकाल लिया है। ये वो लोग हैं जो बशर-अल-असद की सरकार को खड़ने के बाद भारत लौटना चाहते थे। पिछले एक दशक से भी अधिक वक्त से विद्रोही तानाशाह असद की सरकार को गिराने के लिए हाथों में हथियार उठाए हुए थे।

पृष्ठ एक के शेष...

कुर्से से मिली... संभल के जिला प्रशासन ने भस्म शंकर मंदिर, शिवलिंग और वहां मिले कुर्से की कार्बन डेटिंग कराने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को पत्र लिखा है। इस जांच के जरिए प्रशासन पता करना चाहता है कि मंदिर और इसकी मूर्ति आखिर कितनी पुरानी है।

यूपी विधानसभा में कानून... एक ट्रिब्यूनल की इकोनॉमी को प्राप्त करने के बड़े अभियान में सहयोगी और भागीदार बनें। सरकार सभी का सहयोग और समर्थन चाहती है। सदन में हंगामे के दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्य वेल में धरने पर बैठ गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के बार-बार कहने के बाद भी जब विपक्ष ने हंगामा शांत नहीं किया, तो सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानमंडल अध्यक्ष ने कड़े शब्दों में कहा कि आप लोगों के पास पृष्ठने के लिए सबाल नहीं हैं, इसलिए आप लोग हंगामा कर रहे हैं। आप जो चाहें हम हर मुद्दा सुनने के लिए तैयार हैं।

नोएडा में 24, 25 व... आवकारी आयुक्त के आदेश उन्हें मिल गए हैं। जनपद में आदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा टेकों को रात 11:00 बजे तक खोलने की सारी व्यवस्था की जाएगी।

ऑनलाइन शिलांग से... वह ऑनलाइन शिलांग से गांजा व चरस मंगा कर उसकी सप्लाई करते हैं पिछले काफी समय से वह मादक पदार्थों की तस्करि व विक्री में संलिप्त हैं। डीसीपी ने बताया कि आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया

है कि वह कॉलेज इंस्टिट्यूट आदि के बाहर मादक पदार्थों की विक्री करते थे। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

दहेज में 10 लाख रुपये और... बह गया तो उनकी बेटी ने पुलिस में शिकायत की इसके बाद सभी लोग घर से फरार हो गए। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद ससुरालियों ने उनके घर आकर इस मामले में सुलह समझौता किया और आश्वासन दिया कि आगे से उनकी बेटी को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। इस आश्वासन के बाद उनकी बेटी अपने ससुराल चली गई। 14 दिसंबर 2024 की सुबह उन्हें पता चला कि उनकी बेटी पारुल के साथ ससुरालियों ने मारपीट कर उसे फांसी लगाकर मार दिया है और पूरा परिवार मौके से फरार हो गया है।

घटना की सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचे जहां उनकी बेटी फांसी के फंदे पर लटकती हुई थी। इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। थाना सेक्टर 24 पुलिस का कहना है कि पीड़ित पिता के आरोपों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहीं ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा-2 में एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है।

ग्रेटर नोएडा के अल्फा वन सेक्टर निवासी प्रियंका (काल्पनिक नाम) में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसकी शादी वर्ष-2022 को अरुण सिंह निवासी मुजफ्फरनगर के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही ससुरालवालों ने उस पर प्लांट खरीदने के लिए मायके से 22

लाख रुपये ले लिए। यह पैसे उसकी सास नीलम देवी व नंद प्रियंका पवार ने हड़प लिए। इसके बाद उस पर मायके से 20 लाख रुपए और एक्सप्यूरी गाड़ी लाने का दबाव बनाया जाने लगा। दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे तरह-तरह से प्रताड़ित किया जाने लगा। उसे शारीरिक व मानसिक यातनाएं दी जाने लगीं। प्रियंका के दर्ज करने के बाद ससुरालियों ने उनके घर आकर इस मामले में सुलह समझौता किया और आश्वासन दिया कि आगे से उनकी बेटी को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। इस आश्वासन के बाद उनकी बेटी अपने ससुराल चली गई।

प्रियंका का आरोप है कि उसे चोंट पहुंचाने के लिए ससुराल वाले सीढ़ियों पर तेल लगा देते थे। इसके अलावा वाशिंग मशीन में भी कई बार बिजली का करंट छोड़ दिया गया जिससे वह करंट की चपेट में आ गई। प्रियंका के मुताबिक उसके पति, उसकी मां, बहन व देवरानी ने ब्रेन वॉश कर उसके खिलाफ भड़का दिया। इस कारण वह उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने इसकी शिकायत थाना बीटा-2 दो पुलिस से भी की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने न्यायालय में याचिका दायर कर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग की। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है।

सीईओ ने कई सेक्टरों... उनके साथ जनस्वास्थ्य विभाग के महाप्रबंधक एसपी सिंह, जनस्वास्थ्य विभाग खंड-1 के प्रभारी गौरव बंसल तथा अन्य अधिकारी शामिल थे।

शारी में बिना बुलाये... लोगों ने जब उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम सौरभ रतन बताया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने उसे बैक्रीट हॉल से बाहर निकाल दिया इसके बाद सौरभ रतन ने अपनी बाइक से उन्हे टकरा मारने का भी प्रयास किया। जाते समय आरोपी उन्हे जान से मारने की धमकी भी देकर गया।

CALIPH EXIM PVT. LTD.

Concept to reality

• ARCHITECTURE • CONSTRUCTION • INTERIORS

WE DON'T DESIGN HOME/ OFFICE

WE DESIGN DREAMS!

Certified by :

ISO 9001

startupindia

9999472324, 9999082512

www.grvbuildcon.com

खास खबर

पाक के गेंदबाज इरफान ने लिया संन्यास



लाहौर। पाकिस्तान में आजकल लगता है खिलाड़ियों के संन्यास लेना का दौर चल रहा है। इमाम वसीम और मोहम्मद आमिर के बाद अब एक और तेज गेंदबाज मोहम्मद इरफान ने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। इस प्रकार पिछले तीन दिनों में ही पाक के इन 3 खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। 7 फीट से ज्यादा लंबे इरफान अपनी स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे। पिछले काफी समय से टी से बाहर चल रहे इरफान ने अपने संन्यास के बारे में जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि मैं अपने साथियों, कोचों को सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके प्यार, उत्साह और अविस्मरणीय यादों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उस खेल का समर्थन करना और जश्न मनाना जारी रखूंगा जिसके कारण ही मैं यहां तक पहुंचा हूँ। इरफान ने पाक टीम के लिए अंतिम बार साल 2019 में अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। इसके बाद से ही वह टीम से बाहर चल रहे हैं। साल 2010 में उन्होंने पाक टीम की ओर से डेब्यू करने के बाद तीनों प्रारूपों में खेलते हुए 4 टेस्ट में 10 विकेट, 60 एकदिवसीय मैचों में 83 विकेट और 22 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 16 विकेट लिए थे। मोहम्मद इरफान का भले ही टेस्ट करियर ज्यादा लंबा ना रहा हो पर एकदिवसीय और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने अपने बल पर पाक टीम को कई मैचों में जीत दिलाई है। उन्होंने पाक टीम की ओर से साल 2012 में भारत के खिलाफ बंगलूरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में अपना पहला टी20 खेला था।

कुशाग ने विश्व कुशाग

प्रतियोगिता में जीता कांस्य पदक

इन्दौर। शहर के कुशाग व्यास ने मंगोलिया के उलनबतुर शहर में आयोजित जूनियर विश्व कुशाग प्रतियोगिता के 46 किलो वजन वर्ग में भारतीय टीम की ओर से शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। उनकी इस उपलब्धि के बाद उनके शहर आगमन पर फौक मार्शल आर्ट एकेडमी पर और उनके स्कूल आईपीएस पूर्वी कैम्पस में आयोजित एक भव्य समारोह में प्राचार्या पूजा शर्मा, गोपाल पालीवाल शहर के कुशाग खिलाड़ियों के द्वारा रत्नेश मेढोला, राजेश शावक, कैलाश बाथम, महेश पुरोहित, विनय यादव के नेतृत्व में कुशाग व्यास का भव्य स्वागत किया गया।

विजय सोलंकी मैनेजर एवं सपना चौधरी कोच नियुक्त

इन्दौर। स्थानीय डेली कॉलेज में 20 से 24 दिसंबर तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय शालेय कराटे स्पर्धा हेतु म.प्र. टीम के सफल नेतृत्व के लिए इंदौर संभाग से विजय सोलंकी को मैनेजर एवं सपना चौधरी को कोच नियुक्त किया गया है। उनकी इस नियुक्ति पर कैलाश विजयवर्मा, रमेश मेढोला, नवीन मदान, चंदू शिंदे, श्रवण मिश्रा, सुभाष सातालाकर, बलविंदर सिंह सेठी, नारायण चंडेलिया व विनय यादव ने उन्हें बधाई शुभकामनाएं दीं।

हेड के तेज शतक से ऑस्ट्रेलिया बड़े स्कोर की ओर

गाबा। ट्रेविस हेड के शानदार शतक से मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम के खिलाफ यहां तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन 6 विकेट पर 339 रन बना लिए थे। इस मैच में पहले दिन बारिश के कारण सिर्फ 13.2 ओवर ही डाले गए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के 13.2 ओवरों में 28 रन बनाये थे। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन लंच तक अपनी पहली पारी में 3 विकेट पर 104 रन बना लिए हैं। दूसरे दिन पहले सेशन में 76 रन बने और तीन विकेट गिरे। दूसरे सेशन में ट्रेविस हेड ने अपना शतक पूरा किया। हेड ने केवल 115 गेंदों में ही अपना शतक लगा दिया। इसमें 13 चौके शामिल थे।

ब्रिसबेन टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म

ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 400 पार

एजेंसी ब्रिसबेन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के तहत यहां खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में सात विकेट खोकर 405 रन बना लिए हैं। मिचेल स्टार्क 7 रन और एलेक्स कैरी 45 रन बनाकर नाबाद हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड ने 152 रन और स्टीव स्मिथ ने 101 रन की शतकीय पारी खेली। वहीं, भारतीय टीम की ओर से जसप्रीत बुमराह ने पांच विकेट लिए हैं। रविवार को मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 13.2 ओवर में बिना किसी विकेट के 28 रन से आगे खेलना शुरू किया। मेजबान



टीम को 31 के स्कोर पर पहला झटका लगा। सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा 54 गेंदों में तीन चौके की मदद से 21 रन बनाकर आउट हो गए। फिर 38 के स्कोर पर टीम का दूसरा

विकेट गिरा और दूसरे सलामी बल्लेबाज नाथन मैकस्वीनी भी पवेलियन चलते बने। मैकस्वीनी 9 रन बना सके। 75 के स्कोर पर मार्नस लाबुशेन भी आउट होकर पवेलियन लौट गए।

लाबुशेन केवल 12 रन बना सके। इसके बाद स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड ने पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ दिए। हेड ने जहां ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 115 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, वहीं स्मिथ ने धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी करते हुए 185 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। यह उनके टेस्ट करियर का 33वां शतक है। दोनों बल्लेबाजों ने 200 रन से ज्यादा की साझेदारी कर ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 300 के आंकड़े के पार पहुंचाया। इस साझेदारी का अंत जसप्रीत बुमराह ने स्मिथ को आउट करके किया। स्मिथ 190

गेंदों में 12 चौकों की मदद से 101 रन बनाकर आउट हुए। स्मिथ के बाद मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड को भी बुमराह ने पवेलियन भेज दिया। मार्श पांच रन बना सके, जबकि हेड ने 160 गेंदों में 18 चौके की मदद से 152 रन बनाए। 385 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को सातवां झटका लगा। कप्तान पैट कर्मिस 20 रन बनाकर आउट हुए। मिचेल स्टार्क सात रन और एलेक्स कैरी 45 रन बनाकर नाबाद हैं। भारत की ओर से अब तक जसप्रीत बुमराह ने पांच विकेट लिए जबकि मोहम्मद सिराज और नीतीश कुमार रेड्डी ने एक-एक विकेट हासिल किया है।

विकास सिंह ने की धुआंधार बल्लेबाजी, नगर आयुक्त ने जीता मैच



एजेंसी लखनऊ। नगर निगम क्रिकेट टूर्नामेंट के लीग मैच में नगर आयुक्त ने प्रेस को नौ विकेट से हरा दिया। इस मैच में विकास सिंह ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए छह चौकों की मदद से 19 बाल पर 38 रन बनाए। भारतीय बल्लेबाजों ने तीन चौकों की मदद से 24 रन बनाए। विकास सिंह ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए छह चौकों की मदद से 19 बाल पर 38 रन बनाए। आकाश कुमार ने 11 रन बनाए।

35 रन बनाये। वहीं अन्य कोई भी बल्लेबाज दहाई अंक तक नहीं पहुंच पाया। प्रवीण राय ने आठ रन का योगदान दिया। वहीं नगर आयुक्त की टीम ने मात्र एक विकेट खोकर जीत हासिल की। सलामी बल्लेबाज सोनू प्रेस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 15 ओवर में सात विकेट गवांकर 92 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज अजय शर्मा ने 11 रन का योगदान दिया। वहीं वरुण यादव ने चार चौकों की मदद से

सिराज के बेल्स बदलते ही लाबुशेन हुए आउट

एजेंसी गाबा। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन को आज ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया। लाबुशेन और स्टीव स्मिथ की जोड़ी जैसे ही जम रही थी। सिराज ने बेल्स बदलकर लाबुशेन का ध्यान भटका दिया। इसके बाद वह अगले ही ओवर में नीतीश रेड्डी की गेंद पर विराट कोहली के हाथों कैच हो गये।



इसके बाद सिराज स्ट्राइक एंड पर गए और बेल्स को बदल दिया। सिराज बेल्स बदलकर जब जाने लगे उसके बाद एक बेल्स नीचे गिर गई। इसके बाद

लाबुशेन ने उस बेल्स को उठाकर पहले ही तरह रख दी। ये एक प्रकार से क्रिकेट में टोटका माना जाता है। जब विरोधी टीम का विकेट नहीं गिर

रहा होता है तो सामने वाली टीम के खिलाड़ी बल्लेबाज का ध्यान भंग करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। वही यहां सिराज ने किया। सिराज का यह टोटका काम कर गया। सिराज ने बेल्स बदली और अगले ही ओवर में लाबुशेन आउट हो गये। लाबुशेन 55 गेंद पर 12 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय टीम ने तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन पहले सत्र में ही ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट गिरा दिये। जसप्रीत बुमराह ने दोनो सलामी बल्लेबाजों के विकेट लिए जबकि नीतीश ने लाबुशेन को आउट कर भारत को तीसरी सफलता दिलाई।

ऋषभ पंत ने बनाया रिकार्ड

एजेंसी गाबा। भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन एक अहम उपलब्धि अपने नाम की है। ऋषभ ने इस मैच में जसप्रीत बुमराह की गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा का कैच पकड़ते ही टेस्ट विकेटकीपर के तौर पर अपना 150वां शिकार किया। ऋषभ ने कार हादसे से उबरकर जिस प्रकार की विकेटकीपिंग की है। उससे सभी हैरान हैं। इस युवा क्रिकेटर ने सीमित ओवरों को अलावा टेस्ट क्रिकेट में अपनी फिटनेस को साबित किया है।



वह 150 शिकार करने वाले तीसरे भारतीय विकेटकीपर बने हैं। उनसे पहले ये उपलब्धि महेंद्र सिंह धोनी और सैयद किरमानी ने हासिल की थी। ऋषभ ने अब तक 41 टेस्ट मैचों में 135 कैच पकड़ने के साथ ही 15 स्टम्पिंग

की हैं। धोनी इस सूची में पहले नंबर पर हैं उन्होंने विकेटकीपर के तौर पर कुल 294 शिकार किये हैं। जिसमें 256 कैच और 38 स्टम्पिंग की हैं। वहीं दूसरे नंबर पर रहे सैयद किरमानी के नाम 198 शिकार हैं जिसमें उन्होंने 160 कैच पकड़े हैं जबकि 38 स्टम्पिंग की हैं। अब ऋषभ को किरमानी को पीछे छोड़ने के लिए 49 और शिकार बतौर विकेटकीपर टेस्ट क्रिकेट में करने हैं। ब्रिसबेन का गाबा मैदान इस युवा क्रिकेटर के लिए काफी अच्छा रहा है। यहां उन्होंने पिछली बार शानदार बल्लेबाजी करते हुए 97 रन बनाकर भारतीय टीम को जीत दिलायी थी।

बैटमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन



रांची। झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की ओर से प्रथम बैटमिंटन प्रतियोगिता 2024 का सफल आयोजन रांची के खेल गांव स्थित विश्वनाथ भगत इनडोर बैटमिंटन स्टेडियम में खेला गया। इस प्रतियोगिता में प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता का आयोजन उम्र के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में किया गया। वृषेन सिंगल में रश्मि विनर रही, जबकि मेन्स सिंगल में समीर कच्छप विजयी हुए। 50 वर्ष

गिलेस्पी की लगातार उपेक्षा कर रहा था पीसीबी

कराची। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच का पद छोड़ने वाले जैसन गिलेस्पी ने अब इसके कारणों का खुलासा किया है। गिलेस्पी ने कहा कि पाक बोर्ड उनकी लगातार उपेक्षा कर रहा था यहां तक कि दक्षिण अफ्रीका में दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए राष्ट्रीय टीम के चयन में उनसे सलाह नहीं ली गयी थी। पीसीबी के कुछ अधिकारियों ने गिलेस्पी के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर दी थी। उन्हें टीम से जुड़े अधिकारियों से अलग-थलग कर दिया गया था। उनके अनुरोध के बाद भी बोर्ड ने हाई परफॉर्मिंग कोच टिम नीलसन के करार को आगे नहीं बढ़ाया था। दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए टेस्ट टीम के चयन में भी उनकी भूमिका नहीं थी। गिलेस्पी इस बात से भी नाराज थे कि नीलसन का करार आगे नहीं बढ़ाया गया है।

शमी विजय हजारे ट्रॉफी के लिए बंगाल टीम में शामिल

एजेंसी मुम्बई। अनभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आगामी विजय हजारे ट्रॉफी के लिए बंगाल की 20 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। शमी के पास इस सीरीज में बेहतर प्रदर्शन कर अपनी फिटनेस साबित करने का अवसर रहेगा। उसी के बाद देखा जाएगा कि वह ऑस्ट्रेलिया में चल रही टेस्ट सीरीज के लिए तैयार हैं कि नहीं। वहीं इससे पहले भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा था कि शमी को सभी टीम में शामिल करना चाहते हैं पर इसके लिए उन्हें पूरी तरह फिट होना होगा। हम उनको लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। शमी ने अंतिम बार 2023 एकदिवसीय विश्वकप में भारत के लिए खेला था। उसके बाद टखने की सर्जरी के बाद से ही वह टीम



से बाहर हैं। उन्होंने नवंबर में रणजी ट्रॉफी के साथ वापसी की और मध्य प्रदेश के खिलाफ मैच में सात विकेट लिए थे। इसके बाद उन्होंने सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी में बंगाल के लिए सभी 9 मैच में 11 विकेट अपने नाम किए। हालांकि इस टूर्नामेंट के दौरान

में दिल्ली के खिलाफ करेगी। सभी खिलाड़ी बुधवार को कोलकाता से हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। विजय हजारे ट्रॉफी 21 दिसंबर से 18 जनवरी के बीच खेली जाएगी। इस टूर्नामेंट में कुल 38 टीमों हिस्सा लेंगी। विजय हजारे ट्रॉफी के लिए बंगाल की सदस्यीय टीम इस प्रकार है: सुदीप कुमार घरामी (कप्तान), मोहम्मद शमी, अनुसुप मजुमदार, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), सुदीप चटर्जी, कर्ण लाल, शक्तिर बंबीब गणधी (विकेटकीपर), सुमंत गुप्ता, सुभम चटर्जी, रणजित सिंह खेरा, प्रदीप प्रमाणिक, कोशिक मैती, विकास सिंह, मुकेश कुमार, सक्षम चौधरी, रोहित कुमार, मोहम्मद कैफ, सूरज सिंघु जयसवाल, सानव घोष, कनिष्क सेठ।

राहुल को खरीदना ही नहीं चाहती थी आरसीबी

एजेंसी मुम्बई। रॉयल चैलेंजर्स (आरसीबी) ने जब आईपीएल 2025 के लिए पिछले माह हूई नीलामी में के ए राहुल पर बोली नहीं लगायी थी तो सभी हैरान हो गये थे। वहीं अब ये खुलासा हुआ है कि आरसीबी की राहुल को खरीदने की कोई योजना ही नहीं थी। आईपीएल का 18वां सीजन 14 मार्च से 25 मई तक खेला जाएगा। मेगा नीलामी में आरसीबी ने अपनी पसंद के कई खिलाड़ी खरीदे हैं हालांकि, फ्रेंचाइजी के कुछ फैसलों से सभी हैरान भी हुए दिशों से एक था राहुल को न खरीदना। इसका कारण है कि



नीलामी से पहले कहा जा रहा था कि राहुल को आरसीबी किसी भी कीमत में खरीदेगी। यहां तक कहा गया था कि आरसीबी राहुल को कप्तान भी बनाएगी पर बाद से ये सभी बातें गलत निकलीं।

बड़े खिलाड़ियों के नाम भी नहीं थे। इससे साफ है कि आरसीबी इन्हें नहीं चाहती थी। आरसीबी की सूची में स्मिन युजवेंद्र चहल और अंलाराउंडर वेंकटेश अय्यर का नाम जरूर था। इसके अलावा टीम को डेविड और लियाम लिविंगस्टोन को भी खरीदने की योजना थी। जिसमें वह सफल भी रही। इसके अलावा आरसीबी की सचू में भुवनेश्वर कुमार भी शामिल थे। इसी वजह से उसने भुवी को मोटी रकम देकर खरीदा था। इसके अलावा टी नटराजन, डेविड मिलर और जोश हेजलवुड भी उसकी योजना में शामिल थे।

प्रो. सीताराम शर्मा मेमोरियल ट्रॉफी लीग रॉयल चैलेंजर्स ने 6 रन से जीत दर्ज

रांची। टॉस जीत कर देवघर प्रोटेस्टर्स ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। रॉयल चैलेंजर्स 15 ओवर में स्कोर-106/5 देवघर की ओर से चंचल ने -39, अजय ने -18, अमित ने 2 विकेट लिए। जवाब में देवघर प्रोटेस्टर्स ने 15 ओवर में 100/7 रन बनाये, राम किशोर-29, उमेश-34, आरसीबी की ओर से अजय ने 3 विकेट लिये। रॉयल चैलेंजर्स ने 6 रन से जीत दर्ज की। डॉ. मुस्तफी द्वारा प्रायोजित मैन ऑफ द मैच चंचल (आरसीबी)। पुरस्कार-प्रोअतुल आनंद मेमोरियल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट-चंचल मिश्रा। सर्वाधिक



चार पुरस्कार डॉ. जॉयजीत घोष द्वारा प्रायोजित - संयुक्त विजेता श्रीधर और चंचल। डॉ. जॉयजीत घोष-अजय (आरसीबी) द्वारा प्रायोजित सर्वाधिक विकेट पुरस्कार : डॉ जॉयजीत घोष-उमेश (देवघर) द्वारा प्रायोजित सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार: सर्वश्रेष्ठ क्षेत्ररक्षक पुरस्कार प्रायोजित मनोज गिरी- अजय (आरसीबी)।

कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर अशोक शेरान, ईईई विभाग के प्रमुख प्रोफेसर आरसी झा, प्रोफेसर ए.के. सिन्हा ने विजेताओं और खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर मुस्तफी, डॉ. एसपी सिंह, डॉ. ओपी पांडे, डॉ. सुजीत, श्री विद्युत चंदा, डॉ. सतीश चंदर और सभी कर्मचारी और संकाय उपस्थित थे।

सेसेशन, लायन वारियर्स, योद्धा व निंजा मजबूत स्थिति में

एजेंसी इन्दौर। म.प्र. टेबल टेनिस संगठन तथा प्राइम टेबल टेनिस के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित प्रदेश की पहली टेबल टेनिस लीग (प्राइम टेबल टेनिस लीग) में लायन वारियर्स, सेसेशन, योद्धा टीमों अपने अपने मुकामों जीतकर स्पर्धा के अगले दौर में पहुंचे। अभय प्रशाल में खेले जा रही स्पर्धा के लीग मुकामों में लायन वारियर्स ने थंडरबोल्ट्स को पराजित कर अगले दौर में प्रवेश किया। लायन के अनुज सोनी ने रूद्र चौधरी को 11-5, 11-9 से, भाग्यश्री दवे ने आराध्या राजपूत को 11-9, 11-9 से, प्रथम बांधम व पवी परदेशी की जोड़ी पराजित विरूद्ध अंश गोयल व भव्या राव 7-11, 8-11 से, रिदम गढ़िया पराजित विरूद्ध प्रियांशु गुप्ता 5-11, 9-11 से, प्रथम बांधम पराजित विरूद्ध अंश गोयल 7-



11, 10-12, 11-6 से, अनुज सोनी व मुदित मालपानी की जोड़ी ने रूद्र चौधरी व समीर सैयद की जोड़ी को 11-8, 11-6 से, मुदित मालपानी ने समीर सैयद को 19-17, 6-11, 11-8 से, रिदम गढ़िया व भाग्यश्री दवे की जोड़ी ने प्रियांशु गुप्ता व आराध्या राजपूत की जोड़ी को 11-5, 11-8 से, संतोष खिरवड़कर ने विशाल

जोशी को 11-6, 7-11, 11-6 से पराजित कर टीम को अगले दौर में पहुंचाया। सेसेशन टीम ने निंजा टीम को पराजित किया, जिसमें सेसेशन टीम के यशराज गोस्वामी ने प्रज्वल यादव को 11-9, 9-11, 11-5 से, सुमेया सुल्तान ने हिया पटेल को 10-12, 11-9, 11-3 से, शिंज्वम सोलंकी ने हिमानी चतुर्वेदी पराजित विरूद्ध

कार्तिकेय कोशीरक व पूजा शर्मा 9-11, 7-11 से, शिंज्वम सोलंकी ने कार्तिकेय कोशीरक को 6-11, 16-14, 11-5 से, प्रांजल शर्मा पराजित विरूद्ध लक्ष्य ओझा 9-11, 8-11 से, प्रांजल शर्मा व सार्थक रघुवंशी की जोड़ी ने लक्ष्य ओझा व दश मिश्रा की जोड़ी को 11-9, 11-7 से, किशोर मोटवानी ने अजेश बाफना को 11-4, 11-



चीन में ओहोरी आया महिलाओं के बीडब्ल्यू एफ बैटमिंटन के एकल सेमीफाइनल में रिटर्न शॉट लगाती हुई।

खूबसूरत ट्रेन नजारे की यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो इन 5 साउथ इंडिया के रेल रुट मजा लें

हम सभी कहीं भी किसी यात्रा पर जाते हैं, तो ट्रेन से जरूर जाते हैं। ट्रेन यात्रा के समय खिड़की वाली सीट होना एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है। ट्रेन में बैठे-बैठे खूबसूरत दृश्य देखने का एक अलग ही मजा होता है। अगर आप साउथ इंडिया की ट्रिप पर जा रहे हैं तो इन खूबसूरत ट्रेन रुट्स के बारे में एक बार जरूर जान लें। सबसे अच्छे विकेशन पैकेज

प्रत्येक दिन लाखों लोग ट्रेन में सफर जरूर करते हैं। ट्रेन से सफर तय करने का सबसे बेहतरीन साधन है। अगर आपको भी ट्रेन से सफर करना पसंद है तो आज हम आपको इस लेख में बताएंगे कि साउथ इंडिया की खूबसूरत ट्रेन रुट्स के बारे में, जहां आप भी कर सकते हैं सफर। जब आप इन ट्रेन रुट्स से गुजरेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक पल के लिए यहीं ठहर जाएं।

बेंगलुरु से गोकर्ण

कर्नाटक के गोकर्ण सिर्फ वहां के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि देश के शिव भक्तों और समुद्र तट के प्रेमियों के लिए किसी जन्म तट से कम नहीं जगह। जब बेंगलुरु से गोकर्ण के लिए सीधी ट्रेन जाती है, तो रास्ते में आपको हरे-भरे कोफ़ी बागानों और सुंदर पुलों का नजारा देखने को मिलेगा। इस ट्रेन रुट का पूरा रास्ता आपके घने हरे-भरे जंगलों से जाता है। यदि आप इस रुट से यात्रा का प्लान कर रहे हैं, तो कारवार एक्सप्रेस से यात्रा का प्लान बना सकते हैं। यह ट्रेन हफ्ते में 3 दिन चलती है।

वर्कला से कन्याकुमारी

गौरतलब है कि कन्याकुमारी साउथ इंडिया में सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। केरल के वर्कला से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाने वाले इस ट्रेन रुट पर प्राकृतिक नजारे से भरे हुए हैं। इस रुट पर आप ट्रेवल करने के लिए खूब पसंद करेंगे। इस ट्रेन रुट पर सफर करने के दौरान ऐसा लगेगा कि आधे से ज्यादा खूबसूरत वादियों को कवर कर लिया है। आपको बता दें कि आइलैंड एक्सप्रेस वर्कला से कन्याकुमारी तक चलती है। यह ट्रेन करीब 4 घंटों में 127 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सबसे अच्छे विकेशन पैकेज

मेडुपालयम से ऊटी

ऊटी हिल स्टेशन तमिलनाडु का सबसे खूबसूरत है। इस हिल स्टेशन पर कई खूबसूरत ट्रेन रुट्स हैं, जहां आप प्राकृतिक खूबसूरती देख सकते हैं। यहां पर आप शांत वातावरण के साथ ही हरे-भरे पेड़-पौधे देखने को मिलेंगे, जिससे आपको काफी सुकून मिलेगा। आपको बता दें कि, नीलगिरि माउंटन रेलवे, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की लिस्ट में भी शामिल है। यहीं, मेडुपालयम से ऊटी ट्रेन करीब 4.75 घंटों में 46 किलोमीटर की दूरी तय करती है।



दुनियाभर में छा गया भारत का यह गांव इसकी खासियत और प्राकृतिक सुंदरता देख आप भी चौंक जाएंगे



भारत का कल्चरल और जियोग्राफिकल बायोडायवर्सिटी, देश के छोटे-छोटे गांवों में भी समाहित है। हाल ही में कुछ गांवों ने टूरिस्टों के बीच अपनी एक खास पहचान बनाई है। इनमें से एक है धुडमारास गांव, जी हां, छत्तीसगढ़ के धुडमारास को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया है। बस्तर जिले में स्थित इस धुडमारास गांव को यूपन ने बेस्ट टूरिज्म विलेज की लिस्ट में जगह दिया है। यह गांव संयुक्त राष्ट्र संघ के 60 देशों के बेस्ट 20 गांव में शामिल हुआ है। यदि आपको इस गांव के बारे में नहीं पता तो इस खबर के माध्यम से विस्तार से जानिए...

दुनिया के टॉप 20 गांव में सिलेक्शन

बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित धुडमारास गांव दुनिया भर के उन 20 गांवों में से एक है जिसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना गया है। धुडमारास को इसकी अद्भुत सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और सतत पर्यटन विकास की क्षमता के कारण चुना गया है। यह गांव छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बस्तर में मौजूद है। यह गांव प्रकृति के गोद में बसा हुआ है। पहाड़ों और नदी के बीच घने जंगल में बसा हुआ है। यह गांव गूगल मैप पर नजर नहीं आता है और ना ही इसे राजस्व या वन गांव का दर्जा मिला है। इसके बावजूद इस गांव ने अपने सामूहिक परिश्रम और एकजुटता का परिचय दिया है, जो पर्यटकों को प्रकृति के गहराई में ले चलता है।

विश्व स्तर पर पर्यटन गांव के रूप में इस गांव की

परोसा जाता है। इसके साथ ही गांव के सभी स्थानीय लोगों के द्वारा प्रकृति की सुरक्षा और बिना छेड़छाड़ के अलग अलग एक्टिविटी भी कराई जाती है।

मेहमान नवाजी के लिए भी काफी मशहूर

गांव के बीच से बहती कांगेर नदी यहां के नजारे को मनमोहक बना देती है। बस्तर के लोग मेहमान नवाजी के लिए भी काफी मशहूर हैं। यहां के स्थानीय लोग अपने घरों को पर्यटकों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं, ठहरने की सुविधा उपलब्ध करवाने से उन्हें रोजगार मिल रहा है। गांव के युवा पर्यटकों को आसपास के क्षेत्रों की सैर कराते हैं। स्थानीय खानपान के अंतर्गत पर्यटकों को बस्तर के पारम्परिक व्यंजन परोसे जाते हैं। गांव के युवाओं की ईको टूरिज्म डेवलपमेंट कमेटी कांगेर नदी में कयाकिंग और बम्बू राफ्टिंग की सुविधाएं पर्यटकों को उपलब्ध करवाती है, जिससे इस कमेटी को अच्छी खासी आमदनी हो रही है। यह पर्यटन समिति अब अपनी आमदनी से गांव में पर्यटकों के लिए वेस्टिंग रूम और टॉयलेट जैसी बेसिक सुविधाएं विकसित कर रहे हैं। यह गांव अब बस्तर के अन्य गांवों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। यही कारण है कि कांगेर घाटी नेशनल पार्क के नागलसर और नेतानार में भी ईको-टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है।



गांव गूगल मैप में भी नहीं आता नजर

इसके अलावा यह भी बताया कि इस गांव को सभी ने छोड़ दिया है। यह गांव गूगल मैप में भी नजर नहीं आता है। यह गांव कोटमसर ग्राम पंचायत का आश्रित गांव है। लेकिन न इसे राजस्व ग्राम का दर्जा है, न सामान्य वन गांव और न ही कांगेर वेली ग्राम का दर्जा है। जिसके कारण स्थानीय आदिवासी शासकीय योजनाओं का लाभ बेहतर तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि इसे राजस्व ग्राम बनाने की लड़ाई ग्रामीण लड़ रहे हैं। जिसका पहला प्रकाशन भी हो गया है। इसके साथ ही यह बघेल बताया कि प्लास्टिक बैग को इकट्ठा किया जा रहा है और एक साथ सभी को रीसाइक्लिंग के लिए फैक्ट्री भेजा जाएगा। इस तरह इको टूरिज्म की बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कारण धुडमारास को बीते दिनों बेहतर गांव के नाम पर दिल्ली में सम्मानित किया गया था। वहीं अब संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने बेहतरीन गांव के लिए 60 देशों के 20 गांवों में इस धुडमारास को शामिल किया है।

पलायन की समस्या के चलते उठाया कदम

कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य मानसिंह बघेल ने बताया कि इस पर्यटन गांव की शुरुआत होम स्टेय से हुई। जिसके बाद पलायन की समस्या को देखते हुए धीरे धीरे गांव में पर्यटन और एक्टिविटी को विस्तार किया गया। ताकि स्थानीय युवा इस गांव से पलायन करके अन्य स्थानों का रुख न करें। इसके साथ ही इस गांव में 40 परिवार निवासरत हैं और प्रत्येक घर से एक सदस्य इस समिति में शामिल है। रोजगार के साथ ही गांव को प्रकृति के क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। इस पर्यटन गांव में पर्यटकों के लिए बम्बू राफ्टिंग, कयाकिंग, ट्रेकिंग, बर्ड वाचिंग जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। ताकि प्रकृति को पर्यटक करीब से महसूस करें। इस गांव में कांगेर नदी बहती है। जो आगे जाकर शबरी नदी में मिल जाती है। इसी नदी में बम्बू राफ्टिंग और कयाकिंग कराया जाता है। दोनों के लिए एक सीमा निर्धारित किया गया है। उस सीमा के आगे स्थानीय लोगों का पूजा क्षेत्र मौजूद है। दोनों एक्टिविटी के दौरान पर्यटक काफी शांति महसूस करते हैं और चिड़ियों की चहचहाट भी सुनाई देती है।

पर्यटकों को खूब भा रहा यह गांव

पर्यटकों ने बताया कि पहली बार वे धुडमारास घूमने आये उन्हें यह प्रकृति के बीच घने जंगलों में बसा गांव काफी अच्छा लगा। बम्बू राफ्टिंग और कयाकिंग का अनुभव काफी अच्छा था। शहर के शोर शराबे से दूर धुडमारास में एक अलग सी शांति मिली। इसके साथ ही पहाड़ी मैना और अन्य पक्षियों की चहचहाट भी सुनाई दी। एक अलग ही अनुभव हुआ। निश्चित ही जिस उद्देश्य से इस गांव का चयन यूपन ने किया है। ठीक वैसा ही यह पर्यटन गांव है और निश्चित ही आगामी दिनों में बस्तर की पहचान बढ़े पर्यटन स्थलों के रूप में शिमला, मनाली और कश्मीर की तर्ज पर की जाएगी।

अंडे जितना प्रोटीन देती है ब्रोकली, खाने से मिलती है जबरदस्त ताकत

ब्रोकली, जो गोभी की तरह दिखने वाली सब्जी है, शाकाहारी लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो सेहत को मजबूत और बीमारियों से दूर रखने में मदद करती है। आइए जानते हैं ब्रोकली के फायदे और इसे अपनी डाइट में शामिल करने के कारण।

ब्रोकली : प्रोटीन का बढ़िया स्रोत

प्रोटीन सेहत को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। जबकि मांसाहारी लोग अंडे और मांस से प्रोटीन की जरूरत पूरी करते हैं, शाकाहारी लोगों के लिए ब्रोकली एक शानदार विकल्प है। यूपसडीए के अनुसार, एक अंडे में करीब 6 ग्राम प्रोटीन होता है, जबकि 100 ग्राम ब्रोकली में लगभग 3 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है।

हालांकि, अंडे की तुलना में ब्रोकली में कैलोरी कम होती है। यह वजन घटाने और फिरट रहने के लिए भी उपयोगी है। इसके अलावा, ब्रोकली में लगभग 2.6 ग्राम डाइटरी फाइबर पाया जाता है, जो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने और वजन कम करने में मदद करता है।

कैंसर से बचाव में मददगार

ब्रोकली एक प्रकार की क्रूसिफेरस सब्जी है, जिसमें कई

एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में कैंसर पैदा करने वाले सेल्स को डैमेज होने से रोकते हैं। नियमित रूप से ब्रोकली का सेवन करने से कैंसर का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है।

हड्डियों के लिए वरदान



ब्रोकली में कैल्शियम और कोलेजन अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं। इसके साथ ही, इसमें मौजूद विटामिन च हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में मदद करता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों को रोकने में कारगर है।

इम्यूनिटी बढ़ाने में फायदेमंद

सर्दियों के मौसम में इम्यूनिटी मजबूत रखना बेहद जरूरी है। ब्रोकली में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यह सही-खासी जैसी सामान्य समस्याओं से बचाने और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है।

कैसे करें ब्रोकली का सेवन?

सलाद के रूप में : ब्रोकली को कच्चा या हल्का उबालकर सलाद में शामिल किया जा सकता है।




सूप : ब्रोकली सूप विटामिन और मिनरल्स का अच्छा स्रोत है। सब्जी : इसे अन्य सब्जियों के साथ पका सकते हैं। हल्का भूनकर या बेक कर इसे स्नेक्स के रूप में खा सकते हैं। ब्रोकली को डाइट में शामिल करना क्यों जरूरी है? ब्रोकली का सेवन शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन और पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने का एक आसान तरीका है। इसे अपनी

डाइट में शामिल करने से न केवल प्रोटीन की जरूरत पूरी होती है, बल्कि वजन नियंत्रण, इम्यूनिटी बढ़ाने और बीमारियों से बचाव में भी मदद मिलती है। ब्रोकली खाने से आप स्वस्थ रह सकते हैं और लंबे समय तक बीमारियों से दूर रह सकते हैं। इसे अपनी डेली डाइट में शामिल करना न भूलें।



जेल से घर लौटे अल्लू, मिलने पहुंचे विजय देवरकोंडा



पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ में हुई महिला की मौत मामले में शुक्रवार को अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया, उन्हें जमानत

मिल गई है। एक दिन जेल में रहकर शनिवार सुबह वह घर पहुंचे। जेल से निकलकर अल्लू अर्जुन अपने घर आकर आ गए हैं। अब उनके घर पर मिलने वालों का तांता लग गया है। कुछ देर साउथ फिल्मों के फेमस एक्टर विजय देवरकोंडा भी अल्लू अर्जुन के घर पहुंचे हैं। विजय और अल्लू लंबे समय से जगिरी दोस्त हैं। इमोशनल हो गए विजय देवरकोंडा अल्लू अर्जुन को घर पर देखकर विजय का चेहरा खिल उठा। वह अपने दोस्त को देखकर इमोशनल हो गए। विजय ने अल्लू को देखते ही गले लगा लिया। दोनों बहुत देर तक गले मिलते रहे। ऐसा लग रहा था कि विजय देवरकोंडा को अल्लू अर्जुन के जेल जाने का बहुत दुख हुआ। अल्लू अर्जुन से मिलने के बाद विजय देवरकोंडा परिवार के बाकी सदस्यों से मिले, जिसमें अल्लू अर्जुन के पिता भी शामिल रहे। इसके बाद अल्लू अर्जुन और विजय देवरकोंडा साथ में बैठकर काफी देर तक बात करते रहे। अल्लू, विजय से कुछ कहते हुए नजर आए, ऐसा लग रहा था कि वह कल की पूरी घटना का जिक्र कर रहे हैं। विजय भी ध्यान से अल्लू अर्जुन की बातों को सुन रहे थे।

सच्चे दोस्त का फर्ज निभाया
अल्लू अर्जुन को शनिवार सुबह घर आए हुए कुछ ही देर हुई थी, इतने में ही विजय देवरकोंडा उनके घर पहुंच गए थे। इस पता चलता है कि दोनों की दोस्ती कितनी गहरी है। अपने दोस्त अल्लू अर्जुन के मुश्किल समय में विजय उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। विजय के अलावा अल्लू अर्जुन से मिलने के लिए प्रोड्यूसर दिल राजू, डायरेक्टर कोराला शिवा भी पहुंचे। एक्टर चिरंजीवी की पत्नी भी मिलने पहुंची विजय देवरकोंडा के बाद चिरंजीवी की पत्नी और अल्लू अर्जुन की बुआ सुरेखा भी उनसे मिलने घर पर पहुंची हैं। वह भी अल्लू अर्जुन के गले लगीं। बहुत देर तक प्यार से अल्लू अर्जुन से बात करती रहीं। साथ ही अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद से भी सुरेखा ने बातचीत की।

रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने प्रियंका चोपड़ा को किया सम्मानित

अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस हाल ही में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 (आरएसआईएफएफ) का हिस्सा बनीं। कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर अभिनेत्री ने कहा कि वह लोगों को एक साथ लाने की मनोरंजन की युनिवर्सल पावर में विश्वास रखती हैं।

रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनीं प्रियंका

प्रियंका चोपड़ा जोन रेड सी ऑनरी, वियोला डेविस में शामिल हो गई हैं। यह फिल्म महोत्सव स्क्रीन पर और व्यापक फिल्म इंडस्ट्री के भीतर उनके सफल करियर और उपलब्धियों का जश्न मना रहा है। इस दौरान अभिनेत्री ने कहा, रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहचाने जाने से मैं अभिभूत हूँ, यह कहानी कहने का उत्सव है जो भाषा, सीमाओं और सांस्कृतिक विभाजनों से परे है।

अभिनेत्री ने की रेड सी टीम की सराहना
प्रियंका चोपड़ा ने आगे कहा, मैंने हमेशा लोगों को एक साथ लाने के लिए मनोरंजन की युनिवर्सल पावर में विश्वास किया है, और न केवल हॉलीवुड या बॉलीवुड के भीतर बल्कि दुनिया भर में बताई जा रही कहानियों की अविश्वसनीय प्रतिभा और विविधता को प्रदर्शित करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए मैं रेड सी टीम की सराहना करती हूँ।

उन्होंने आगे उल्लेख किया, इंडस्ट्री में लगभग 25 वर्षों को प्रतिबिंबित करते हुए, मुझे याद आता है कि मैं कितनी भाग्यशाली रही हूँ कि मैं ऐसी कहानी कहने और उसमें योगदान देने में सक्षम रही हूँ जो दुष्टिकोण को चुनौती देती है, बदलाव को प्रेरित करती है और हम सभी को जोड़ती है। यह मान्यता इस बात की याद दिलाती है कि मुझे सबसे पहले फिल्में बनाने का शौक क्यों हुआ। इस विशेष सम्मान के लिए और वैश्विक सिनेमा की असाधारण कलात्मकता को उजागर करने के उनके प्रयासों के लिए रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को मेरा आभार।

टाइगर श्रॉफ के साथ स्क्रीन साझा करेंगी हरनाज संधू

साल 2021 में मिस यूनिवर्स का ताज अपने नाम करनी वाली हरनाज कौर संधू बॉलीवुड में डेब्यू के लिए तैयार हैं। उनके हाथ हिंदी फिल्म लगी है। हरनाज टाइगर श्रॉफ के साथ स्क्रीन साझा करेंगी। शायद नाम आप समझ गए हों! जी हां, हरनाज को बागी 4 में साइन किया गया है। फिल्म के निर्माताओं ने इसकी पुष्टि की है। फिल्म बागी 4 के निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने हरनाज को साइन किया है। आज गुरुवार को नाडियाडवाला ग्रैंडसन के इंस्टाग्राम पेज से एक पोस्ट साझा किया गया है। इसमें हरनाज की तस्वीर है। इसके साथ लिखा है, मिस यूनिवर्स से बागी यूनिवर्स तक! हम आपको नई प्रतिभा से मिला रहे हैं। बागी 4 में लेडी रिबेल। इस फिल्म का निर्देशन एच र्षा कर रहे हैं। फिल्म बागी 4 अगले साल सित्तंबर में दस्तक देगी। यह फिल्म 5 सित्तंबर 2025 को रिलीज होगी। आज की तारीख हरनाज के लिए यू भी खास है। साल 2021 में हरनाज ने आज ही के दिन मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। 12 दिसंबर 2021 में वे मिस यूनिवर्स बनीं। और आज 12 दिसंबर 2024 को उनके बॉलीवुड डेब्यू की खबर सामने आई है।



कीर्ति सुरेश को सामंथा ने दी शादी की शुभकामनाएं

12 दिसंबर को साउथ अभिनेत्री कीर्ति सुरेश ने गोवा में एक निजी समारोह के दौरान एथनी थॉटिल के साथ शादी की। कीर्ति ने अपनी शादी की तस्वीरों को सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कीं। शादी के बाद फिल्म जगत से उन्हें बधाईयां मिलने लगीं। अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु ने अभिनेत्री को शादी की शुभकामनाएं दी। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर सामंथा ने दोनों की प्यारी सी पोस्ट साझा की सामंथा ने लिखा, इस तस्वीर ने मेरा दिल जीत लिया। दो बेहद खूबसूरत लोगों को बधाई, आप हमेशा खुशी और शांति से भरे रहें।



अल्लू अर्जुन के समर्थन में आए तेलुगु अभिनेता नानी

अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के बाद कई अभिनेता उनके समर्थन में उतर रहे हैं। अब तेलुगु अभिनेता नानी, अल्लू अर्जुन के समर्थन में सामने आए हैं। अभिनेता ने गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सभी को इस घटना से सीख लेनी चाहिए और भविष्य में अधिक सावधान रहना चाहिए। अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर अभिनेता नानी ने एक पोस्ट करते हुए लिखा, काश, सिनेमा से जुड़े लोगों से जुड़ी किसी भी चीज में सरकारी अधिकारी और मीडिया जिस तरह का उत्साह दिखाते हैं, वैसा ही उत्साह आम नागरिकों के लिए भी होता। हम एक बेहतर समाज में रहते। अभिनेता ने आगे लिखा, वह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और यह दिल तोड़ने वाली थी। हम सभी को इस आपदा से सीख लेनी चाहिए और इसके बाद और अधिक सावधान रहना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने चाहिए कि यह फिर न हो। हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है।

वरुण धवन ने भी लिया पक्ष

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन भी अल्लू अर्जुन के समर्थन में सामने आए और कहा कि अभिनेता को हर चीज के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जयपुर में 'बेबी जॉन' के प्रचार में, वरुण ने कहा, सुरक्षा प्रोटोकॉल ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई अभिनेता खुद पर ले सकता है। हम अपने आस-पास के लोगों को बता सकते हैं। अभिनेता ने उन्धे थिएटर में हुए हादसे को दुःख भी बताया। 4 दिसंबर को 'पुष्पा 2: द रूल' की स्क्रीनिंग के दौरान हैदराबाद के संघा थिएटर में हुई भगदड़ में 35 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद अल्लू अर्जुन और उनकी टीम पर मामला दर्ज किया गया था। घटना के बाद अभिनेता अल्लू अर्जुन ने घटना पर शोक और दुःख जताया था। उन्होंने कहा था, संघा थिएटर में हुई दुःख घटना से मैं बहुत दुखी हूँ। इस अकल्पनीय कठिन समय में मैं शोककाल परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैं उन्हें आश्चर्य करना चाहता हूँ कि वे इस दर्द में अकेले नहीं हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से परिवार से मिलूंगा। अभिनेता ने आगे कहा, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। मैं 25 लाख रुपये की राशि दान करना चाहता हूँ। यह उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक सद्भावनापूर्ण कदम है।



सीआईडी का नया सीजन जल्द ही दर्शकों के बीच दस्तक देने वाला है। इस बार फिर से दर्शकों को दया के रूप में दयानंद शेड्डी का पसंदीदा किरदार देखने को मिलेगा। अपने जन्मदिन के मौके पर दयानंद शेड्डी ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने न सिर्फ सीआईडी के नए सीजन के बारे में अपने विचार साझा किए, बल्कि अजय देवगन के साथ काम करने के अनुभव और दिलजले फिल्म को लेकर भी दिलचस्प खुलासा किया।
सीआईडी शो एक बार फिर से शुरू हो रहा है। इस नए सीजन में दर्शकों को क्या नया देखने को मिलेगा? कौन से खास बदलाव या नए ट्विस्ट होंगे?
सीआईडी शो 21 वर्षों तक अपने समय से



सीआईडी की वजह से सिंधम फ्रेंचाइजी की फिल्में मिलीं

आगे था। अब जब अपराध अधिक हाईटेक हो गए हैं, तो हमें भी अपनी जांच के तरीके में बदलाव लाना पड़ा है। शो का फ्लेवर वही रहेगा, लेकिन अब हम अपराधियों के नए तरीकों के हिसाब से जांच करेंगे।
90 के दशक में जब यह शो शुरू हुआ था, उस समय और आज के टीवी इंडस्ट्री में काम करने के तरीकों में आपने क्या प्रमुख बदलाव महसूस किए हैं?
बहुत बदलाव आया है। पहले लंबे शॉट्स होते थे, लेकिन अब तकनीकी विकास के साथ फिल्मांकन और कहानी कहने के तरीके में काफी बदलाव आया है। अब सब कुछ बहुत ज्यादा आधुनिक हो गया है, जिससे शूटिंग और एडिटिंग की गति भी तेज हो गई है।
**सीआईडी से पहले आप फिल्म दिलजले में नजर आए थे? नहीं, यह जानकारी गलत है। मैंने कभी दिलजले में काम नहीं किया और न ही यह फिल्म देखी है। मैंने भी इंटरनेट पर इसके बारे में पढ़ा है। मेरी पहली फिल्म जॉनी गद्दार थी, जिसमें मैंने सीआईडी के दौरान काम किया था।
आपने सिंधम रिटर्न्स और सिंधम अगेन में अजय देवगन के साथ काम किया। उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा?**
अजय देवगन के साथ काम करने का बहुत अच्छा अनुभव रहा। क्राफ्ट के प्रति

समझ और समर्पण ने उन्हें बड़ा स्टार बनाया है। सिंधम फ्रेंचाइजी में काम मिलने का श्रेय सीआईडी को जाता है, क्योंकि मेरे किरदार की लोकप्रियता के कारण ही मुझे ये फिल्में मिलीं।
सिंधम अगेन में करीना कपूर का दया दरवाजा तोड़ डायलॉग बहुत लोकप्रिय हुआ। क्या आपको इस डायलॉग की वजह से फिल्म में कास्ट किया गया था?
दया दरवाजा तोड़ एक साधारण सी लाइन थी, लेकिन यह बहुत लोकप्रिय हो गई। फिल्म में यह लाइन रोहित शेड्डी की सोच का नतीजा थी। सिंधम रिटर्न्स में अजय देवगन ने यह लाइन बोली थी और सिंधम अगेन में करीना कपूर ने। रोहित शेड्डी का दृढ़ विश्वास था कि इस लाइन पर लोग तालियां बजाएंगे।
सीआईडी पर सोशल मीडिया पर अक्सर मीम्स बनते हैं। आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? क्या कोई खास मीम है जो आपको बहुत पसंद आया हो?
मीम्स तो बहुत से हैं। लोग सीआईडी के वीडियो पर डब करके मीम्स बनाते हैं और यह दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। मुझे अच्छा लगता है कि लोग इस शो

को इतना पसंद करते हैं और इस शो के जरिए वे अपनी यादों को ताजा करते हैं। बहुत से लोग हमसे मिलते हैं और अपने शानदार बचपन के लिए हमें धन्यवाद देते हैं। लोगों को हंसी से भरे ये मीम्स अच्छे लगते हैं और हमें भी यह देखकर अच्छा लगता है कि लोगों में यह शो कितना ज्यादा लोकप्रिय है।
शिवाजी साटम और आदित्य श्रीवास्तव के साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी है? क्या आप तीनों शूटिंग के बाद भी एक-दूसरे से मिलते रहते हैं?
हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। छह साल हमारा शो ऑफ एयर था, लेकिन हम लोग लगातार मिलते जुलते रहते थे। हमने सीआईडी के बाद सीआईएफ नाम का शो भी किया था। उसमें शिवा जी सर तो नहीं थे, लेकिन आदित्य सर, फेडी सर और सीआईडी की टीम के बाकी लोग थे। इसके अलावा हमने साथ में काफी विज्ञापन भी किए। हम एक-दूसरे को परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। शिवाजी सर को हम बड़े भाई की तरह मानते हैं और आदित्य सर भी मेरे बड़े भाई की तरह हैं। सेट पर हम सभी एक-दूसरे को बहुत इज्जत देते हैं।

कैंसर जागरूकता को लेकर विचार गोष्ठी आयोजित विश्व जैन संगठन ने लगाया आँख व दांतों की जांच का शिविर

नोएडा (चेतना मंच)। नोएडा की सेक्टर-31 स्थित आईएमए हाउस में शनिवार

स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉ अभिषेक गुलिया ने बताया कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के

सर्जरी में अभी आई की भूमिका उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी डायग्नोस्टिक

माता सुदेश शर्मा व पिता फ्लाइट लेफ्टिनेंट जे पी शर्मा, फोनरवा के महासचिव के के जैन,

ब्रेन ट्यूमर स्टेज में नहीं ग्रेड में होता है: डा. रोहन सिन्हा



को कैंसर के प्रति जागरूकता को लेकर मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सहयोग से एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह आयोजन नोएडा में दीप उत्सव की अलख जगाने वाले युवा विकास शर्मा की प्रथम भावपूर्ण स्मृति दिवस पर समाजसेवी त्रिलोक शर्मा द्वारा आयोजित किया गया। इस गोष्ठी में मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर अतुल शर्मा डॉ रोहन सिन्हा व डॉ अभिषेक गुलिया ने कैंसर की गम्भीर बीमारी को लेकर लोगों के संशय दूर किये। मैक्स सुपर

प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रोस्टेट जांच जरूर करानी चाहिए। ब्रेन ट्यूमर के विशेषज्ञ डॉक्टर रोहन सिन्हा ने कहा कि किसी भी मरीज के स्वस्थ होने के लिए सबसे पहले उनके परिवार का सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। अगर आप परिवार के सदस्य के रूप में अपने मरीज का साथ देंगे तो मरीज मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा। डा. रोहन सिन्हा ने कहा कि ब्रेन ट्यूमर अन्य कैंसर की तरह स्टेज में नहीं होता। यह ग्रेड में होता है। डॉ अतुल शर्मा ने बताया कि कैंसर की

सिस्टम में है आने वाले दिनों में आई की भूमिका बढ़ेगी इसमें कोई संदेह नहीं है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव प्रशांत कुमार मिश्रा, पूर्व आईएस गणेश शंकर त्रिपाठी व विमल शर्मा, डॉ वी पी सिंह, नोएडा लोकमंच के महासचिव महेश सक्सेना, नवरत्न फाउंडेशन के अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव नोएडा विधायक पंकज सिंह के भाई अनिल सिंह, राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री जोगेंद्र सिंह अवाना, डीडीआरडब्ल्यू के अध्यक्ष एनपी सिंह, शहीद शशिकांत शर्मा की

रोटरी क्लब नोएडा अध्यक्ष डॉ मोहिता शर्मा सचिव अल्का चोपड़ा रोटरीयन सुधीर मिहडा प्रेम चोपड़ा राम गोवर दीपक भार्गव अशोक मनचंदा सुनील महाजन अनिल मितल महेंद्र अवाना, राम अवतार शास्त्री, सुरेश शर्मा, सचिन अम्बवता, रविदत्त वर्मा, हरीश त्रिपाठी, रविकांत मिश्रा, राजकुमार गर्ग, अजय बाटला, राम रतन शर्मा, आर के शर्मा, खजान दीक्षित, अवधेश शर्मा, विनोद शर्मा व संजय गुप्ता आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन अशोक श्रीवास्तव ने किया।



नोएडा (चेतना मंच)। सेक्टर-50 स्थित पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में नि:शुल्क आंखों का और दांतों की जांच के शिविर का आयोजन किया गया। यह कैम्प विश्व जैन संगठन नोएडा ने आईटीएस कॉलेज ग्रेटर नोएडा और सेंटर फॉर साइट, नोएडा के सहयोग से आयोजित किया गया। विश्व जैन संगठन नोएडा के अध्यक्ष केके जैन ने बताया कि नि:शुल्क जांच शिविर में 300 से अधिक लोगों ने अपनी जांच करवाई जिसमें आंखों का

कम्प्यूटरीकृत मशीन द्वारा रिफ्रेक्टो, स्लेर चार्ट का उपयोग करते हुए व्यक्तिपरक रिफ्रेक्टो, मोतियाबिंद और दांतों का चेकअप, दांतों की सफाई एवं स्क्रिनिंग आदि कार्य किए गए। इस मौके पर विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जैन, के के जैन, महासचिव दिनेश जैन, राहुल जैन, प्रदीप जैन, राजेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, विपिन जैन, गौरव जैन तथा बड़ी संख्या में समाज के महिलाएं व पुरुष उपस्थित रहे।

आरडब्ल्यू 34 ने कैंप लगवाकर बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनवाए

नोएडा (चेतना मंच)। सेक्टर-34 स्थित नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन भी किया कम्प्यूनिटी सेंटर में रविवार को फंडेशन ऑफ ग्या



आरडब्ल्यू सेक्टर-34 द्वारा आयुष्मान कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए साथ ही साथ इस मौके पर निवासियों हेतु टाटा 1 एमजी लेब के माध्यम से

फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यू सेक्टर-34 अध्यक्ष के के जैन एवं महासचिव धर्मेन्द्र शर्मा ने बताया कि 50 से अधिक बुजुर्गों ने आयुष्मान कार्ड बनवाए एवं 60 से अधिक निवासियों द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर का लाभ उठाया गया बुजुर्गों में आयुष्मान कार्ड के प्रति काफी सक्रियता देखने को मिल रही है। कैंप में आयुष्मान कार्ड बनवाने पहुंच रहे बुजुर्गों ने कार्ड बनवाने के लिए

अन्य साधियों को भी जागरूक करने का आह्वान किया। कैंप में आयुष्मान कार्ड के लाभ बताए गए और बुजुर्गों द्वारा आरडब्ल्यू द्वारा लगाए गए कैंप के लिए पदाधिकारियों का विशेष आभार व्यक्त किया।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए लगाया कैम्प

नोएडा (चेतना मंच)। नोएडा के सेक्टर-105 में RWA ने आयुष्मान भारत



योजना के तहत सेक्टर के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष कैंप का आयोजन किया।

सेक्टर-105 RWA के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने बताया कि कैंप के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कराने के उद्देश्य

से आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आयोजित किया गया।

अध्यक्ष ने बताया कि कैंप में सेक्टर के सभी वरिष्ठ नागरिकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। श्री शर्मा ने बताया की ये कैंप विशेष रूप से 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए था।

सेक्टर-105 RWA के महासचिव राजीव दुबलिया ने सेक्टर के वरिष्ठ निवासियों को कार्ड से मिलने वाले लाभ व आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड धारकों को फ्री इलाज की सुविधाएं से अवगत कराया। उन्होंने बताया की वरिष्ठ नागरिकों ने प्रसन्नता पूर्वक कैंप का लाभ उठाया।

सेक्टर-71 में लगाया आयुष्मान कार्ड कैंप

नोएडा (चेतना मंच)। सेक्टर-71 वी ब्लॉक में भारत सरकार द्वारा 70 वर्ष से अधिक



आयु वर्ग के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कैंप लगाया गया। सेक्टर 71 आरडब्ल्यू अध्यक्ष सुनील वाधवा ने बताया कि इस कैंप में 41 लोगों ने

अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और 5 लोगों के कार्ड 70 वर्ष से कम आयु अथवा दिल्ली का

आधार कार्ड होने के कारण कार्ड नहीं बन सके। 36 लोगों के कार्ड बनने की प्रक्रिया हो चुकी है। शीघ्र ही कार्ड वितरित कर दिए जाएंगे।

दिव्यांगजनों को उपकरण बांटे

नोएडा (चेतना मंच)। राष्ट्रीय लोक अदालत में

दिव्यांगजन कल्याण विभाग गौतमबुद्धनगर के सहयोग से चिन्हित दिव्यांगजन दीवानी न्यायालय में उपस्थित हुये जिन्हें 2 इलेक्ट्रिक ट्राई साइकल व 2 बैसाखी व 1 कान मशीन व 2 घुटने एवं कमर की बैल्ट व 2 छड़ी दिव्यांगजनों को जनपद न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर द्वारा वितरण करते हुये लाभांशित किया गया।

उक्त उपकरण श्रीमती सुखवीरी, महेश, श्रीमती महादेवी व श्रीमती संतोष को उपलब्ध कराते हुये दिव्यांगजनों को लाभांशित किया गया तथा राष्ट्रीय लोक अदालत में महिला एवं बाल कल्याण विभाग गौतमबुद्धनगर की



योजना के अन्तर्गत चिन्हित बालकों को दीवानी न्यायालय में जनपद न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर द्वारा 10

बालकों को प्रमाणपत्र देकर लाभांशित किया गया तथा 30प्र0 क्षतिपूर्ति योजना के तहत श्रीमती अमीना को क्षतिपूर्ति धनराशि अंकन 2 लाख का बैंक देकर लाभांशित किया गया।

मनुष्य के जन्म से शुभ कर्मों की यात्रा प्रारम्भ होती है श्रीमद्भागवत : प्रवर संत जीवेश कुमार शास्त्री

नोएडा (चेतना मंच)। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण महात्म्य बताते हुए संत जीवेश

जलने, कुदने, चिड़ने, तड़पने में ही नष्ट हो जाती है। व्यक्ति यह भूल ही जाता है कि मनुष्य का



शास्त्री ने बताया कि यह मनुष्य का जीवन जो हम लोगों को सौभाग्य के रूप में प्राप्त हुआ है, वह एक ऐसा अवसर है जहां से अनंत प्रकाश की यात्रा प्रारंभ होती है। ऐसे जीवन की यात्रा मात्र

जीवन वस्तुस्थिति में एक अवसर के रूप में हमको मिला है। जो इस अवसर का सही साधक व सम्यक उपयोग करना जान जाते हैं, उनके जीवन की यात्रा उनको परमात्मा तक ले जाती है।

वे सेक्टर-74 सुपरटेक केपटाउन में भागवत कथा का पारायण कर रहे थे।

यदि हम सब कुछ जान गए, परन्तु स्वयं को न जान सके तो जो भी जाना वह व्यर्थ ही है, निरर्थक है, मूल्यविहीन है। अपने को जानने की यात्रा ही अध्यात्म की यात्रा है और स्वयं के भीतर छिपी हुई परंतु सोई हुई शक्तियों को जगाने का जो विज्ञान है वह अध्यात्म विज्ञान है। स्वयं को जानने का मतलब औरों का जो हमारे प्रति मंत्र्य है जिसे हम पब्लिक ऑपिनियन कहकर के पुकारते हैं उसको जानना नहीं है बल्कि अपने मन पर, इंद्रियों पर पूर्ण वशीकार के भाव को स्थापित कर लेना है। यदि हम सच में स्वयं को जानते तो हमारे मन में एक भी विचार ऐसानहीं आता जिसको कि हम नहीं आने देना चाहते, परंतु ऐसा होता कहाँ है?

प्रश्न उठता है की मन आखिर इतना चंचल क्यों है तो उसका एक कारण यह है कि मन तो एक इंद्री है एक उपकरण है परंतु हम उसको मालिक बनाकर बैठे हैं। जो हम नहीं भी सोचना चाहते होंगे, वह भी मन सोचता है जो हम नहीं भी करना चाहते होंगे वह मन करता है, वह ना किसी की सुनता है, न समझता है क्योंकि वह था तो इंद्रिय हमने संपूर्ण व्यक्तित्व का एकाधिकार उसको दे दिया है।



GRV BUILDCON
Concept to reality

ARCHITECTURE / CONSTRUCTION / INTERIORS

WE DON'T DESIGN HOME / OFFICE
WE DESIGN DREAMS!



Certified by :



startupindia



Contact Us : 9999472324, 9999082512
www.grvbuidcon.com